**FINANCIAL EXPRESS** 

# CCI to overhaul its general regulations

MANU KAUSHIK New Delhi, June 6

THE COMPETITION COMMIS-**SION** of India (CCI) is overhauling its general regulations. On Thursday, the competition regulator began the consultation process for bringing changes to the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009. In the month-long process, which ends on July 8, the CCI will be seeking comments on a bunch of new additions, deletions and modifications to the existing rules.

The key changes include appointing of a monitoring agency to oversee the implementation of its final orders, asking the parties involved to file their financial statements, removing the deadline of 90 days to pass the final order after its interim orders, among others.

For instance, the draft amendments said that the monitoring agency will be independent of the parties involved, and the agency will have to that it does not have any conflict of interest with the said parties. "Such agen-



cies referred to in this regulation may include an accounting firm, management consultancy, any other professional organisation or chartered accountants or company secretaries or cost accountants," the draft said.

Similarly, the amendments said that the commission, while forwarding the investigation report of the Director General (Investigation) to the parties concerned for filing objections or suggestions will also direct the parties concerned to file their financial information including financial statements. This will be in accordance with the Competition Commission of India (Determination of Turnover or Income) Regulations, 2024 and the Competition Commission of India (Determination of Monetary Penalty) Guidelines, 2024.

amendments made under competition act are incorporated for the better functioning of the regulator. "The CCI basically performs its duties based on principles of natural justice which cannot be ignored and are always open for judicial review before the higher forums.

Experts said that the

## Banks may hike FD rates further, says CareEdge

**FE BUREAU** Mumbai, June 6

WITH YIELDS ON capital market offerings remaining high, the interest rate on deposits are likely to rise further, CareEdge Ratings said in a report on Thursday.

Credit offtake rose 19.5% year-on-year to ₹166.1 trillion for the fortnight ended May 17. Deposits grew 13.3% to ₹208.1 trillion as on May 17, 2024, driven by growth in time deposits.

In April, there was pressure on outstanding spreads due to growing competition among banks as well as a slowdown in the growth of unsecured lending. The spreads between the outstanding lending rate and deposit rate have been hovering below pre-Covid-19 levels since June 2023. This is exerting pressure on net interest margins, the credit rating agency said.

In recent months, the spread between the outstanding lending rates and deposit rates has narrowed compared to the spread between fresh lending and deposit rates.

Improving liquidity to boost CP issuances: **India Ratings** 

An improving liquidity outlook will benefit commercial paper (CP) issuances in the coming months, India Ratings and Research said in a report.

The Reserve Bank of India (RBI) announced a record dividend of ₹2.1 trillion to the government for 2023-24 (April-March), which will help ease the ongoing pressure on the banking system deposit accretion and overall rates in the system.

Post the announcement of the RBI's dividend, the overall money market rates have started softening.

"The record dividend transfer will help ease the pressure on short-term rates significantly. Short-term rates will benefit from an improving outlook on system liquidity, and reduced reliance on certificates of deposits, which will reduce the supply of money market issuances," the rating agency said.

#### Veg thali costlier by 9% in May The cost of household vegetarian thali in thali prices rose sequentially by 1% May rose by 9% on year due to surge in largely due to a 9% increase in potato prices of tomato (39%), potato (41%) prices, while the cost of other major

components broadly remained flat. Non-veg thali prices last month declined 1% over April. Prices of rice and pulses last month rose by 13% and 21%,

respectively on year.

Food plate cost (₹) Non-veg thali Softening of **59.9** • • • • • • • • • • May '23 • • • • • **25.5** onion, tomato **60.5** • • • • • • • • • Jun '23 • • • • • • 26.7 and oil prices 67.8 • • • • • • • • • • • • Jul '23 • • • • • • • 34.1 Elevated tomato 67.5 • • • • • • • • • • • • Aug '23 • • • • • • • 34.0 prices **60.7** ••••••• Sept '23••••• **28.1** Decline in tomato & **58.6** • • • • • • • • Oct '23 • • • • • • • 27.7 potato prices **60.4** • • • • • • • • • • Nov '23 • • • • • • • **30.5 56.4** • • • • • • • • Dec '23 • • • • • • **29.7 52.0** • • • • • • • • Jan '24 • • • • • • • 28 Decline in broiler onion, potato, **54.0** ••••• Feb '24 ••••• **27.4** tomato, pulses & prices **56.3** • • • • • • • • • • Apr '24 • • • • • **27.4** on-year **27.8** (7%) y-o-y | (1%) m-o-m Change (9%) y-o-y | 1% m-o-m 🐆

# Be land conscious to secure future generations



LAND IS CRITICALLY linked to human existence, and nutritious land means resilient food security. It is, therefore, heartening to see the World Environment Day-2024 is suitably themed on 'land restoration, desertification and drought resilience'. It comprehensively highlights the pressing environmental challenges that affect ecosystems worldwide as well as the need for our collective intervention in land restoration, combating desertification and enhancing drought resilience - three critical pillars in securing food for the future.

None of us will disagree with the alarming pace at which arable land has diminished over the years and the way climate has become increasingly unpredictable. According to the Food and Agriculture Organization

Goyal added that the own-

ership of Indian investors in the

stock market has increased

after the NDA government

came to power. "The holding of

foreigners at the time of UPA

was 21% and it has reduced to

16% today, that is, the invest-

ment of foreigners has reduced

and the ownership of Indian

investors in the Indian stock

market has increased from

He said the size of the

mutual fund industry was only

₹10 trillion in 2014, and has

increased more than five times

to ₹56 trillion. "Through mutual

funds, Indian investors — espe-

cially small investors — are tak-

ing advantage of this growing

Sources said the meeting

with the RSS leaders was in the

context of the outcome of the Lok

Sabha elections, "the changed

political scenario" where the BJP

will no longer enjoy absolute

majority in the Lok Sabha, and

that the new government will be

met to "exchange notes, take

perceptions from each other

and share the impact of the

The leaders, sources said,

an NDA government.

electoral outcome".

79% to 84% today."

(FAO), arable land is the land currently in use or is potentially capable of being used to grow crops. As per FAO estimate, the world's arable land amounted to 1.38 billion hectares in 2019. Arable land worldwide has decreased by nearly a third since 1961. This reduction is due largely to reforestation, soil erosion, and desertification caused by climate change.

Hence, the need for rehabilitating degraded landscapes is of paramount importance. Through comprehensive restoration efforts

such as afforesta-

tion, soil conserva-

FROM THE FRONT PAGE

Rahul seeks JPC probe

into 'market scam'

tion and sustainable land management practices, we can reclaim barren areas and breathe life back into once-fertile soils. By bolstering drought resilience, implementing water-efficient agricultural techniques and promoting resilient crop varieties, we will fortify our food systems against the impact of water scarcity. Over the past century, advancements in agricultural technology have allowed farmers to

market today and these small

retail investors have ensured

that India's ownership has

instantly become more than the

ownership of institutional

was a broader issue than "just

the Adani issue". "This is the first

time the prime minister has

commented very interestingly

and multiple times, one after the

other, saying that the stock mar-

ket is going to boom," he said. "At

the same time, he has informa-

tion that the exit polls are

wrong. He has information that

he knows what is going to hap-

pen because he has IB data and

he also has his own party data,"

Gandhi alleged.

Swearing-in on Sunday,

portfolio talks intensify

Gandhi, meanwhile, said this

investors," Goyal said.

feed a population that has grown from two billion people to over eight billion now. This has also led to deterioration of soil health – 33% of the earth's soils are degraded, and topsoil could run out in just 60 years. We have to understand that feeding the planet should not be at the cost of the earth. Therefore, we should safeguard the health of soils.

I am happy to

mention here

India during the

Conference of the

Parties, known as

COP14, to the

United Nations

Convention to

Combat Deserti-

fication in 2019,

None of us will disagree with the alarming pace at which arable land has diminished over the years

> pledged to restore 26 million hectares degraded and deforested land by 2030. The National Academy of Agricultural Sciences (NAAS) based on a brainstorming session held on December 9, 2021, brought out a report titled 'Road Map for Rehabilitation of

It has recommended among other things farming community must be a part of the mech-

26 Mha Degraded Lands in

anism for defining the R&D agenda; introduction of national land use policy to arrest the ongoing land degradation happening due to diversion of good lands for other uses; promoting regenerative practices; building a lasting soil cover by bringing public institutions, NGOs and forestdependent communities on a common platform; extending public support for professional methods of composting; and educating farmers on the benefits of retaining maximum proportion of crop residue after

With environmental challenges mounting and ecosystems teetering on the brink of collapse, let us recognise the urgency of action, and we sow the seeds of hope for a brighter tomorrow. Let's use resources more efficiently while reducing potential environmental impacts. We should take every possible measure to enhance biodiversity and address land degradation by promoting best farming practices.

(The author is country head and managing director, Syngenta India Private Ltd. Views expressed are his personal.) (This is an Advertisement for information purposes only and not for publication or distribution outside India and is not an Offer Document announcement)

and onion (43%) respectively,

However, non-vegetarian

reports Sandip Das.

thalis as per Crisil data

owing to a 16% drop in

prices of broiler meat

prices. However, veg

Source: Crisil

declined 7% on year



## SAKUMA EXPORTS LIMITED

Corporate Identification Number: L51909MH2005PLC155765

Our Company was initially formed as a partnership firm in the name of Sakuma Exports on December 1, 1998 at Mumbai and was subsequently converted into a Public Limited Company under Part IX of the Companies Act, 1956 with the name of Sakuma Exports Limited vide Certificate of Incorporation dated August 31, 2005 and date of certificate of commencement of business September 05, 2005 issued by Registrar of Companies, Maharashtra. For details of changes in the registered office of our Company, please refer to the chapter entitled 'General Information' beginning on page no. 44 of the Letter of Offer

Tel. No.: +91 22 24999021/22; Email: companysecretary@sakumaexportsltd.com; Website: www.sakumaexportsltd.com; Contact Person: Ms. Khyati Bipin Jobanputra, Company Secretary & Compliance Officer

Registered Office: Aurus Chamber, A 301-302, Near Mahindra Tower, S S Amrutwar Lane, Worli-400013, Mumbai, Maharashtra, India;

OUR PROMOTERS: MR. SAURABH CHANDER MOHAN MALHOTRA AND MS. KUSUM CHANDER MOHAN MALHOTRA ISSUE OF UP TO 7,89,84,298 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RE. 1.00 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS

25.30 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 24.30 PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO Rs. 19983.03 LAKHS' ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 33 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 98 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON APRIL 15, 2024 DAY, MONDAY (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 25.30 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 243.

### **BASIS OF ALLOTMENT**

The Board of Directors of Sakuma Exports Limited wishes to thank all its shareholders and investors for the response to the Issue which opened for subscription on Thursday, April 25, 2024 and closed on Friday, May 24, 2024 with the last date for on market renunciation of Rights Entitlements being Tuesday, May 7, 2024. Out of the total 4,040 Applications for 8,17,84,189 Rights Equity Shares, 407 Applications for 13,64,730 Rights Equity Shares were rejected (including nil Rights Equity Shares partially rejected) due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 3,633 for 7,89,84,298 Rights Equity Shares, which was 100.00 % of the Rights Equity Shares Allotted under the Issue including 2,28,32,891 Equity Shares as Allotment by the Board (on discretion)

The Basis of Allotment was finalized on Tuesday, June 4, 2024 by the Company in consultation with the Lead Manager to the Issue, the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Board of Directors of the Company, at its meeting held on June 4, 2024, took on record the Basis of Allotment so approved, and approved the allotment of 7,89,84,298 Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We hereby confirm that all the valid Applications have been considered for Allotment.

The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is as under:

| Cotocoru              | Applications | Received | Equity Shares Applied for |             |         | Equity Shares allotted |            |         |  |
|-----------------------|--------------|----------|---------------------------|-------------|---------|------------------------|------------|---------|--|
| Category              | Number       | %        | Number                    | Value (₹)   | %       | Number                 | Value (₹)  | %       |  |
| Eligible Shareholders | 3,486        | 95.95%   | 62827396                  | 1589533119  | 78.12%  | 61392235               | 1553223546 | 77.73%  |  |
| Renouncees            | 147          | 4.05%    | 17592063                  | 445079193.9 | 21.88%  | 17592063               | 445079194  | 22.27%  |  |
| Total                 | 3,633        | 100.00%  | 80419459                  | 2034612313  | 100.00% | 78984298               | 1998302739 | 100.00% |  |

No. of valid CAFs

| Category              | (including ASBA applications)<br>received | accepted and Allotted against<br>Rights Entitlement (A) | and Allotted against Additional<br>Rights Equity Shares applied for (B) | Shares accepted and allotted (A+B) |
|-----------------------|---|---|---|------------------------------------|
|                       | Number                                    | Number  | Number  | Number                             |
| Eligible Shareholders | 3,486                                     | 11688413  | 49703822  | 61392235                           |
| Renouncees            | 147                                       | 510851  | 17081212  | 17592063                           |
| Total                 | 3633                                      | 12199264  | 66785034  | 78984298                           |

No. of Rights Equity Shares accepted

for the non-allotted portion under provision mentioned under point No E of page no 264 & 265 of Letter of Offer. Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors who

have provided their email address, have been sent on their email address on or about June 6, 2024 and Investors who have not provided their email address, is being physically dispatched to their Indian address provided by them, is being completed on or about June 7, 2024. The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on June 5, 2024. The Listing application was filed with BSE on June 5, 2024. The credit in respect of allotment of Equity Shares offered pursuant to the Issue in dematerialised form in NSDL and CDSL, as applicable may be completed on or about June 7, 2024. For further details, see "Terms of the Issue" on page 243 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE

upon receipt of trading permission, applications for the same are being made, and shall be traded under same ISIN INE190H01024 as the existing Equity Shares of the Company. The trading is expected to commence on or about Tuesday, June 11, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement will be sent to NSDL and CDSL on receipt of listing permission from BSE and NSE

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM DISCLAIMER CLAUSE OF BSE

It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE

It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by SE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer dated April 8, 2024 filed with the

BSE, NSE and the Securities and Exchange Board of India COMPANY SECRETARY AND LEAD MANAGERS TO THE ISSUE REGISTRAR TO THE ISSUE

FIRST OVERSEAS CAPITAL LIMITED

1-2 Bhupen Chambers, Dalal Street, Fountain, Mumbai -400 001, Maharashtra, India

Tel No.: +91 22 4050 9999 Email: mb@focl.in

Investor Grievance Email: investorcomplaints@focl.in Website: www.focl.in

Contact Person: Mr. Rushabh Shroff SEBI Registration No: INM000003671 Bigshare Services Pvt. Ltd.

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED Office No S6-2, 6th floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra

Tel No.: +91 22 62638200 Email: rightsissue@bigshareonline.com Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com

Contact Person: Mr. Vijay Surana

COMPLIANCE OFFICER

MS. KHYATI BIPIN JOBANPUTRA Aurus Chamber, A 301, Near Mahindra Tower, S S Amrutwar Lane, Worli-400013,

Mumbai, Maharashtra, India Tel. no. +91 22 24999021/22 companysecretary@sakumaexportsltd.com

Website: www.sakumaexportltd.com

Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/ post issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount buckno. ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA.

SEBI Registration Number: INR000001385

THE LEVEL OF SUBSCRPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For SAKUMA EXPORTS LIMITED

Mr. Saurabh Malhotra

Date: June 6, 2024

Place: Mumbai

Disclaimer: Sakuma Exports Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer (LOF) with the SEBI, BSE and NSE. The LOF shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; the website of NSE at www.nseindia.com the website of the Company at www.sakumaexportsltd.com and the website of the Lead Manager at www.focl.in. Investors should note that investment in equity shares involve a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 20 of the LOF. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States

The BJPwon 240 seats, 63 less than its 2019 tally of 303, and much lower than its target of 370

NDA-the coalition ended up with 293 seats in the House of 543. On the BJP-RSS ties, sources

said while the "situation keeps changing... the relationship remains...it will improve."

for the party and 400-plus for the

Last month, asked how the RSS presence has changed between the time of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and now, Nadda had said, "Shuru mein hum aksham honge, thora kum honge, RSS ki zaroorat padti thi... Aaj hum badh gaye hain, saksham hai... toh BJP apne aap ko chalati hai". Date: June 6, 2024

Place: Hisar

## NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

Regd. Office: 28 Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015 Phone No.: (011) 45021854, 45021812 Branch office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana, Phone No: (01662) 222471-83; Email Id.: investorcare@nalwasons.com, Website: www.nalwasons.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

of seeking approval of its Members for the appointment of Directors through Postal Ballot to be set out in the Notice. The Postal Ballot process shall be in accordance with the Section 108 and Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Further, pursuant to Regulation 17(IC) of the Securities Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, approval of shareholders for appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Accordingly, approval of the shareholders shall be obtained through the process of said Postal Ballot. Provisions of section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 "SEBI LODR") read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020; 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA" Circulars") and other applicable laws and regulations, as amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), allowed the companies to conduct the Postal ballot process by sending the notice in electronic form only. Accordingly, the Postal Ballot process shall be conducted through remote e-voting facility of Link Intime India Private Limited ('Link Intime').

Pursuant to the applicable MCA Circulars, the Notice of the Postal Ballot will be sent only by email to the Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective depository participants in accordance with the MCA Circulars. As per the applicable MCA Circulars, no physical copies of the Notice of Postal Ballot will be sent to any Shareholder/Member. The Notice will also be available on the website of the Company www.nalwasons.com and websites of Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com In view of the above, the Company has provided the facility to its Members to register/ update

their email addresses in the following manner and request them to register/update their email addresses to timely receive the Notice of Postal Ballot and other communications: Manner of Registering/Updating Email Addresses: (a) Members holding equity shares of the Company in Physical Mode, and who have not

registered/updated their email addresses, are requested to register/update their email address by sending scanned copy of signed request letter mentioning folio number, complete address and the email address to be registered along with self attested copy of the PAN Card and any document supporting the registered address of the Member, by email to the Company at investorcare@nalwasons.com (b) Members holding equity shares of the Company in Dematerialised Mode, who have not

registered/updated their email addresses with their Depository Participants (DP), are requested to register/update their email addresses with the DP with whom they maintain their DematAccount, Manner of Casting Vote(s) through E-Voting: The Members will be provided e-voting facility to enable them to cast their vote electronically by

e-voting on the Item(s) mentioned in the Notice of the Postal Ballot to be sent to the shareholder. The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited ('Link Intime') to provide e-voting facility to its Members. The detailed instructions of the e-voting are provided in the Notice of the Postal Ballot to be sent to the shareholder. The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the Members

through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depository/DepositoryParticipants, may generate login credentials as per the nstructions given in the Notice of the Postal Ballot to be sent to the shareholder. Shareholders are requested to carefully read the instructions contained in the Notice of the Postal Ballot to be sent to the shareholder.

Company Secretary

(Ajay Mittal)

For Nalwa Sons Investments Limited

financialexp.epapr.in

Chandigarh

FINANCIAL EXPRESS

# CCI to overhaul its general regulations

MANU KAUSHIK New Delhi, June 6

THE COMPETITION COMMIS-**SION** of India (CCI) is overhauling its general regulations. On Thursday, the competition regulator began the consultation process for bringing changes to the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009. In the month-long process, which ends on July 8, the CCI will be seeking comments on a bunch of new additions, deletions and modifications to the existing rules.

The key changes include appointing of a monitoring agency to oversee the implementation of its final orders, asking the parties involved to file their financial statements, removing the deadline of 90 days to pass the final order after its interim orders, among others.

For instance, the draft amendments said that the monitoring agency will be independent of the parties involved, and the agency will have to that it does not have any conflict of interest with the said parties. "Such agen-



cies referred to in this regulation may include an accounting firm, management consultancy, any other professional organisation or chartered accountants or company secretaries or cost accountants," the draft said.

Similarly, the amendments said that the commission, while forwarding the investigation report of the Director General (Investigation) to the parties concerned for filing objections or suggestions will also direct the parties concerned to file their financial information including financial statements. This will be in accordance with the Competition Commission of India (Determination of Turnover or Income) Regulations, 2024 and the Competition Commission of India (Determination of Monetary Penalty) Guidelines, 2024.

Experts said that the amendments made under competition act are incorporated for the better functioning of the regulator. "The CCI basically performs its duties based on principles of natural justice which cannot be ignored and are always open for judicial review before the higher forums.

## Banks may hike FD rates further, says CareEdge

**FE BUREAU** Mumbai, June 6

WITH YIELDS ON capital market offerings remaining high, the interest rate on deposits are likely to rise further, CareEdge Ratings said in a report on Thursday.

Credit offtake rose 19.5% year-on-year to ₹166.1 trillion for the fortnight ended May 17. Deposits grew 13.3% to ₹208.1 trillion as on May 17, 2024, driven by growth in time deposits.

In April, there was pressure on outstanding spreads due to growing competition among banks as well as a slowdown in the growth of unsecured lending. The spreads between the outstanding lending rate and deposit rate have been hovering below pre-Covid-19 levels since June 2023. This is exerting pressure on net interest margins,

In recent months, the spread between the outstanding lending rates and deposit rates has narrowed compared to the spread between fresh lending and deposit rates.

the credit rating agency said.

Improving liquidity to boost CP issuances: **India Ratings** 

An improving liquidity outlook will benefit commercial paper (CP) issuances in the coming months, India Ratings and Research said in a report.

The Reserve Bank of India (RBI) announced a record dividend of ₹2.1 trillion to the government for 2023-24 (April-March), which will help ease the ongoing pressure on the banking system deposit accretion and overall rates in the system.


Post the announcement of the RBI's dividend, the overall money market rates have started softening.

"The record dividend transfer will help ease the pressure on short-term rates significantly. Short-term rates will benefit from an improving outlook on system liquidity, and reduced reliance on certificates of deposits, which will reduce the supply of money market issuances," the rating agency said.

Veg thali costlier by 9% in May The cost of household vegetarian thali in thali prices rose sequentially by 1% May rose by 9% on year due to surge in largely due to a 9% increase in potato prices of tomato (39%), potato (41%) prices, while the cost of other major

components broadly

remained flat. Non-veg thali prices last month declined 1% over April. Prices of rice and pulses last month rose by 13% and 21%, respectively on year.



# Be land conscious to secure future generations



**LAND IS CRITICALLY** linked to human existence, and nutritious land means resilient food security. It is, therefore, heartening to see the World Environment Day-2024 is suitably themed on 'land restoration, desertification and drought resilience'. It comprehensively highlights the pressing environmental challenges that affect ecosystems worldwide as well as the need for our collective intervention in land restoration, combating desertification and enhancing drought resilience – three critical pillars in securing food for

the future. None of us will disagree with the alarming pace at which arable land has diminished over the years and the way climate has become increasingly unpredictable. According to the Food and Agriculture Organization

Goval added that the own-

ership of Indian investors in the

stock market has increased

after the NDA government

came to power. "The holding of

foreigners at the time of UPA

was 21% and it has reduced to

16% today, that is, the invest-

ment of foreigners has reduced

and the ownership of Indian

investors in the Indian stock

market has increased from

mutual fund industry was only

₹10 trillion in 2014, and has

increased more than five times

to ₹56 trillion. "Through mutual

funds, Indian investors — espe-

cially small investors — are tak-

ing advantage of this growing

Sabha elections, "the changed

political scenario" where the BJP

will no longer enjoy absolute

majority in the Lok Sabha, and

that the new government will be

met to "exchange notes, take

perceptions from each other

and share the impact of the

than its 2019 tally of 303, and

The BJPwon 240 seats, 63 less

The leaders, sources said,

an NDA government.

electoral outcome".

He said the size of the

79% to 84% today."

(FAO), arable land is the land currently in use or is potentially capable of being used to grow crops. As per FAO estimate, the world's arable land amounted to 1.38 billion hectares in 2019. Arable land worldwide has decreased by nearly a third since 1961. This reduction is due largely to reforestation, soil erosion, and desertification caused by climate change.

Hence, the need for rehabilitating degraded landscapes is of paramount importance. Through comprehensive restoration efforts such as afforestation, soil conserva-

tion and sustainable land management practices, we can reclaim barren areas and breathe life back into once-fertile soils. By bolstering drought resilience, implementing water-efficient agricultural techniques and promoting resilient crop varieties, we will fortify our food systems against the impact of water scarcity. Over the past century, advancements in agricultural technology have allowed farmers to

market today and these small

retail investors have ensured

that India's ownership has

instantly become more than the

ownership of institutional

was a broader issue than "just

the Adani issue". "This is the first

time the prime minister has

commented very interestingly

and multiple times, one after the

other, saying that the stock mar-

ket is going to boom," he said. "At

the same time, he has informa-

tion that the exit polls are

wrong. He has information that

he knows what is going to hap-

pen because he has IB data and

he also has his own party data,"

Gandhi alleged.

Gandhi, meanwhile, said this

investors," Goyal said.

FROM THE FRONT PAGE

Rahul seeks JPC probe

into 'market scam'

feed a population that has grown from two billion people to over eight billion now. This has also led to deterioration of soil health – 33% of the earth's soils are degraded, and topsoil could run out in just 60 years. We have to understand that feeding the planet should not be at the cost of the earth. Therefore, we should safeguard the health of soils.

I am happy to

None of us will mention here disagree with the India during the alarming pace at Conference of the which arable land Parties, known as COP14, to the has diminished United Nations over the years Convention to

Combat Desertification in 2019, pledged to restore 26 million hectares degraded and deforested land by 2030.

The National Academy of Agricultural Sciences (NAAS) based on a brainstorming session held on December 9, 2021, brought out a report titled 'Road Map for Rehabilitation of 26 Mha Degraded Lands in

It has recommended among other things farming community must be a part of the mech-

anism for defining the R&D agenda; introduction of national land use policy to arrest the ongoing land degradation happening due to diversion of good lands for other uses; promoting regenerative practices; building a lasting soil cover by bringing public institutions, NGOs and forestdependent communities on a common platform; extending public support for professional methods of composting; and educating farmers on the benefits of retaining maximum proportion of crop residue after

With environmental challenges mounting and ecosystems teetering on the brink of collapse, let us recognise the urgency of action, and we sow the seeds of hope for a brighter tomorrow. Let's use resources more efficiently while reducing potential environmental impacts. We should take every possible measure to enhance biodiversity and address land degradation by promoting best farming practices.

(The author is country head and managing director, Syngenta India Private Ltd. Views expressed are his personal.)

#### (This is an Advertisement for information purposes only and not for publication or distribution outside India and is not an Offer Document announcement)

and onion (43%) respectively,

However, non-vegetarian

reports **Sandip Das**.

thalis as per Crisil data

owing to a 16% drop in

prices of broiler meat

prices. However, veg

declined 7% on year



## SAKUMA EXPORTS LIMITED

Corporate Identification Number: L51909MH2005PLC155765

Our Company was initially formed as a partnership firm in the name of Sakuma Exports on December 1, 1998 at Mumbai and was subsequently converted into a Public Limited Company under Part IX of the Companies Act, 1956 with the name of Sakuma Exports Limited vide Certificate of Incorporation dated August 31, 2005 and date of certificate of commencement of business September 05, 2005 issued by Registrar of Companies, Maharashtra. For details of changes in the registered office of our Company, please refer to the chapter entitled 'General Information' beginning on page no. 44 of the Letter of Offer

Registered Office: Aurus Chamber, A 301-302, Near Mahindra Tower, S S Amrutwar Lane, Worli-400013, Mumbai, Maharashtra, India; Tel. No.: +91 22 24999021/22; Email: companysecretary@sakumaexportsltd.com; Website; www.sakumaexportsltd.com;

Contact Person: Ms. Khyati Bipin Jobanputra, Company Secretary & Compliance Officer OUR PROMOTERS: MR. SAURABH CHANDER MOHAN MALHOTRA AND MS. KUSUM CHANDER MOHAN MALHOTRA

ISSUE OF UP TO 7.89.84.298 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RE. 1.00 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS 25.30 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 24.30 PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO Rs. 19983.03 LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 33 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 98 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON APRIL 15, 2024 DAY, MONDAY(THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 25.30 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 243.

#### **BASIS OF ALLOTMENT**

The Board of Directors of Sakuma Exports Limited wishes to thank all its shareholders and investors for the response to the Issue which opened for subscription on Thursday, April 25, 2024 and closed on Friday, May 24, 2024 with the last date for on market renunciation of Rights Entitlements being Tuesday, May 7, 2024. Out of the total 4,040 Applications for 8,17,84,189 Rights Equity Shares, 407 Applications for 13,64,730 Rights Equity Shares were rejected (including nil Rights Equity Shares partially rejected) due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 3,633 for 7,89,84,298 Rights Equity Shares, which was 100.00 % of the Rights Equity Shares Allotted under the Issue including 2,28,32,891 Equity Shares as Allotment by the Board (on discretion).

The Basis of Allotment was finalized on Tuesday, June 4, 2024 by the Company in consultation with the Lead Manager to the Issue, the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Board of Directors of the Company, at its meeting held on June 4, 2024, took on record the Basis of Allotment so approved, and approved the allotment of 7,89,84,298 Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We hereby confirm that all the valid Applications have been considered for Allotment.

The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is as under:

| Catacom               | Applications | Applications Received |          | Equity Shares Applied for |         |          | Equity Shares allotted |         |  |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------|---------------------------|---------|----------|------------------------|---------|--|
| Category              | Number       | %                     | Number   | Value (₹)                 | %       | Number   | Value (₹)              | %       |  |
| Eligible Shareholders | 3,486        | 95.95%                | 62827396 | 1589533119                | 78.12%  | 61392235 | 1553223546             | 77.73%  |  |
| Renouncees            | 147          | 4.05%                 | 17592063 | 445079193.9               | 21.88%  | 17592063 | 445079194              | 22.27%  |  |
| Total                 | 3,633        | 100.00%               | 80419459 | 2034612313                | 100.00% | 78984298 | 1998302739             | 100.00% |  |

Summary of Allotment is as under

| Category              | (including ASBA applications) received | No. of Rights Equity Shares<br>accepted and Allotted against<br>Rights Entitlement (A) | No. of Rights Equity Shares accepted<br>and Allotted against Additional<br>Rights Equity Shares applied for (B) | Shares accepted and allotted (A+B) |  |
|-----------------------|--|--|---|------------------------------------|--|
|                       | Number                                 | Number   | Number  | Number                             |  |
| Eligible Shareholders | 3,486                                  | 11688413   | 49703822  | 61392235                           |  |
| Renouncees            | 147                                    | 510851   | 17081212  | 17592063                           |  |
| Total                 | 3633                                   | 12199264   | 66785034  | 78984298                           |  |

The total shares allotted were 56151407 Equity Shares. The Board has decided at their discretion to allot the 22832891 shares available to the applicants who have applied for the non-allotted portion under provision mentioned under point No E of page no 264 & 265 of Letter of Offer.

Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors who have provided their email address, have been sent on their email address on or about June 6, 2024 and Investors who have not provided their email address, is being physically dispatched to their Indian address provided by them, is being completed on or about June 7, 2024. The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on June 5, 2024. The Listing application was filed with BSE on June 5, 2024. The credit in respect of allotment of Equity Shares offered pursuant to the Issue in dematerialised form in NSDL and CDSL, as applicable may be completed on or about June 7, 2024.

For further details, see "Terms of the Issue" on page 243 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE upon receipt of trading permission, applications for the same are being made, and shall be traded under same ISIN INE190H01024 as the existing Equity Shares of the Company. The trading is expected to commence on or about Tuesday, June 11, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement will be sent to NSDL and CDSL on receipt of listing permission from BSE and NSE.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM DISCLAIMER CLAUSE OF BSE

nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE DISCLAIMER CLAUSE OF NSE

It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE.

It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by SE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer dated April 8, 2024 filed with the

BSE, NSE and the Securities and Exchange Board of India. COMPANY SECRETARY AND LEAD MANAGERS TO THE ISSUE

FIRST OVERSEAS CAPITAL LIMITED 1-2 Bhupen Chambers, Dalai Street, Fountain, Mumbai -

400 001, Maharashtra, India Tel No.: +91 22 4050 9999

Email: mb@focl.in

Investor Grievance Email: investorcomplaints@focl.in Website: www.focl.in

Contact Person: Mr. Rushabh Shroff

SEBI Registration No: INM000003671

Bigshare Services Pvt. Ltd.

**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** Office No S6-2, 6th floor Pinnacle Business Park, Next to

REGISTRAR TO THE ISSUE

Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra Tel No.: +91 22 62638200

Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Contact Person: Mr. Vijay Surana

Email: rightsissue@bigshareonline.com

MS. KHYATI BIPIN JOBANPUTRA Aurus Chamber, A 301, Near Mahindra

Mumbai, Maharashtra, India

Tel. no. +91 22 24999021/22 companysecretary@sakumaexportsltd.com Website: www.sakumaexportltd.com

Tower, S S Amrutwar Lane, Worli-400013,

COMPLIANCE OFFICER

Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/ post issue related matters. All grievances relating to

the ASBA process may be addressed to the Registrar to the issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount buckno. ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA.

SEBI Registration Number: INR000001385

THE LEVEL OF SUBSCRPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For SAKUMA EXPORTS LIMITED

Date: June 6, 2024 Place: Mumbai

Mr. Saurabh Malhotra

Managing Director

Disclaimer: Sakuma Exports Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer (LOF) with the SEBI, BSE and NSE. The LOF shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; the website of NSE at www.nseindia.com the website of the Company at www.sakumaexportsltd.com and the website of the Lead Manager at www.focl.in. Investors should note that investment in equity shares involve a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 20 of the LOF. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States.

much lower than its target of 370

portfolio talks intensify Sources said the meeting for the party and 400-plus for the with the RSS leaders was in the NDA-the coalition ended up with 293 seats in the House of 543. context of the outcome of the Lok

Swearing-in on Sunday,

On the BJP-RSS ties, sources said while the "situation keeps changing... the relationship remains...it will improve."

Last month, asked how the RSS presence has changed between the time of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and now, Nadda had said, "Shuru mein hum aksham honge, thora kum honge, RSS ki zaroorat padti thi... Aaj hum badh gaye hain, saksham hai... toh BJP apne aap ko chalati hai".

#### NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

Regd. Office: 28 Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015 Phone No.: (011) 45021854, 45021812 Branch office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana, Phone No: (01662) 222471-83; Email Id.: investorcare@nalwasons.com, Website: www.nalwasons.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT Shareholders are hereby informed that Nalwa Sons Investments Limited(NSIL) is in the process

of seeking approval of its Members for the appointment of Directors through Postal Ballot to be set out in the Notice. The Postal Ballot process shall be in accordance with the Section 108 and Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Further, pursuant to Regulation 17(IC) of the Securities Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, approval of shareholders for appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Accordingly, approval of the shareholders shall be obtained through the process of said Postal Ballot. Provisions of section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 SEBI LODR") read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA") Circulars') and other applicable laws and regulations, as amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), allowed the companies to conduct the Postal ballot process by sending the notice in electronic form only. Accordingly, the Postal Ballot process shall be conducted through remote e-voting facility of Link ntime India Private Limited ('Link Intime').

Pursuant to the applicable MCA Circulars, the Notice of the Postal Ballot will be sent only by email to the Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective depository participants in accordance with the MCA Circulars. As per the applicable MCA Circulars, no physical copies of the Notice of Postal Ballot will be sent to any Shareholder/Member. The Notice will also be available on the website of the Company www.nalwasons.com and websites of Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com

In view of the above, the Company has provided the facility to its Members to register/ update their email addresses in the following manner and request them to register/update their email addresses to timely receive the Notice of Postal Ballot and other communications: Manner of Registering/Updating Email Addresses: (a) Members holding equity shares of the Company in Physical Mode, and who have not

registered/updated their email addresses, are requested to register/update their email address by sending scanned copy of signed request letter mentioning folio number, complete address and the email address to be registered along with self attested copy of the PAN Card and any document supporting the registered address of the Member, by email to the Company at investorcare@nalwasons.com (b) Members holding equity shares of the Company in Dematerialised Mode, who have not

registered/updated their email addresses with their Depository Participants (DP), are requested to register/update their email addresses with the DP with whom they maintain their Demat Account. Manner of Casting Vote(s) through E-Voting:

The Members will be provided e-voting facility to enable them to cast their vote electronically by

Place: Hisar

e-voting on the Item(s) mentioned in the Notice of the Postal Ballot to be sent to the shareholder. The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited ('Link Intime') to provide e-voting facility to its Members. The detailed instructions of the e-voting are provided in the Notice of the Postal Ballot to be sent to the shareholder. The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the Members

through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depository/DepositoryParticipants, may generate login credentials as per the instructions given in the Notice of the Postal Ballot to be sent to the shareholder. Shareholders are requested to carefully read the instructions contained in the Notice of the

Company Secretary

financialexp.epapr.in

Postal Ballot to be sent to the shareholder For Nalwa Sons Investments Limited (Ajay Mittal) Date: June 6, 2024

FINANCIAL EXPRESS

# CCI to overhaul its general regulations

MANU KAUSHIK New Delhi, June 6

THE COMPETITION COMMIS-**SION** of India (CCI) is overhauling its general regulations. On Thursday, the competition regulator began the consultation process for bringing changes to the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009. In the month-long process, which ends on July 8, the CCI will be seeking comments on a bunch of new additions, deletions and modifications to the existing rules.

The key changes include appointing of a monitoring agency to oversee the implementation of its final orders, asking the parties involved to file their financial statements, removing the deadline of 90 days to pass the final order after its interim orders, among others.

For instance, the draft amendments said that the monitoring agency will be independent of the parties involved, and the agency will have to that it does not have any conflict of interest with the said parties. "Such agen-



cies referred to in this regulation may include an accounting firm, management consultancy, any other professional organisation or chartered accountants or company secretaries or cost accountants," the draft said.

Similarly, the amendments said that the commission, while forwarding the investigation report of the Director General (Investigation) to the parties concerned for filing objections or suggestions will also direct the parties concerned to file their financial information including financial statements. This will be in accordance with the Competition Commission of India (Determination of Turnover or Income) Regulations, 2024 and the Competition Commission of India (Determination of Monetary Penalty) Guidelines, 2024.

Experts said that the amendments made under competition act are incorporated for the better functioning of the regulator. "The CCI basically performs its duties based on principles of natural justice which cannot be ignored and are always open for judicial review before the higher forums.

## Banks may hike FD rates further, says CareEdge

**FE BUREAU** Mumbai, June 6

WITH YIELDS ON capital market offerings remaining high, the interest rate on deposits are likely to rise further, CareEdge Ratings said in a report on Thursday.

Credit offtake rose 19.5% vear-on-year to ₹166.1 trillion for the fortnight ended May 17. Deposits grew 13.3% to ₹208.1 trillion as on May 17, 2024, driven by growth in time deposits.

In April, there was pressure on outstanding spreads due to growing competition among banks as well as a slowdown in the growth of unsecured lending. The spreads between the outstanding lending rate and deposit rate have been hovering below pre-Covid-19 levels since June 2023. This is exerting pressure on net interest margins, the credit rating agency said.

In recent months, the spread between the outstanding lending rates and deposit rates has narrowed compared to the spread between fresh lending and deposit rates.

Improving liquidity to boost CP issuances: **India Ratings** 

An improving liquidity outlook will benefit commercial paper (CP) issuances in the coming months, India Ratings and Research said in a report.

The Reserve Bank of India (RBI) announced a record dividend of ₹2.1 trillion to the government for 2023-24 (April-March), which will help ease the ongoing pressure on the banking system deposit accretion and overall rates in the system.


Post the announcement of the RBI's dividend, the overall money market rates have started softening.

"The record dividend transfer will help ease the pressure on short-term rates significantly. Short-term rates will benefit from an improving outlook on system liquidity, and reduced reliance on certificates of deposits, which will reduce the supply of money market issuances," the rating agency said.

Veg thali costlier by 9% in May The cost of household vegetarian thali in thali prices rose sequentially by 1% May rose by 9% on year due to surge in largely due to a 9% increase in potato prices of tomato (39%), potato (41%) prices, while the cost of other major

components broadly

remained flat. Non-veg thali prices last month declined 1% over April. Prices of rice and pulses last month rose by 13% and 21%, respectively on year.



# Be land conscious to secure future generations



**LAND IS CRITICALLY** linked to human existence, and nutritious land means resilient food security. It is, therefore, heartening to see the World Environment Day-2024 is suitably themed on 'land restoration, desertification and drought resilience'. It comprehensively highlights the pressing environmental challenges that affect ecosystems worldwide as well as the need for our collective intervention in land restoration, combating desertification and enhancing drought resilience – three critical pillars in securing food for

the future. None of us will disagree with the alarming pace at which arable land has diminished over the years and the way climate has become increasingly unpredictable. According to the Food and Agriculture Organization

Goval added that the own-

ership of Indian investors in the

stock market has increased

after the NDA government

came to power. "The holding of

foreigners at the time of UPA

was 21% and it has reduced to

16% today, that is, the invest-

ment of foreigners has reduced

and the ownership of Indian

investors in the Indian stock

market has increased from

mutual fund industry was only

₹10 trillion in 2014, and has

increased more than five times

to ₹56 trillion. "Through mutual

funds, Indian investors — espe-

cially small investors — are tak-

ing advantage of this growing

He said the size of the

79% to 84% today."

(FAO), arable land is the land currently in use or is potentially capable of being used to grow crops. As per FAO estimate, the world's arable land amounted to 1.38 billion hectares in 2019. Arable land worldwide has decreased by nearly a third since 1961. This reduction is due largely to reforestation, soil erosion, and desertification caused by climate change.

Hence, the need None of us will for rehabilitating disagree with the degraded landalarming pace at scapes is of parawhich arable land mount importance. Through has diminished comprehensive over the years restoration efforts such as afforesta-

tion and sustainable land management practices, we can reclaim barren areas and breathe life back into once-fertile soils. By bolstering drought resilience, implementing water-efficient agricultural techniques and promoting resilient crop varieties, we will fortify our food systems against the impact of water scarcity. Over the past century, advancements in agricultural technology have allowed farmers to

market today and these small

retail investors have ensured

that India's ownership has

instantly become more than the

ownership of institutional

was a broader issue than "just

the Adani issue". "This is the first

time the prime minister has

commented very interestingly

and multiple times, one after the

other, saving that the stock mar-

ket is going to boom," he said. "At

the same time, he has informa-

tion that the exit polls are

wrong. He has information that

he knows what is going to hap-

pen because he has IB data and

he also has his own party data,"

Gandhi alleged.

Gandhi, meanwhile, said this

investors," Goyal said.

tion, soil conserva-

FROM THE FRONT PAGE

Rahul seeks JPC probe

into 'market scam'

feed a population that has grown from two billion people to over eight billion now. This has also led to deterioration of soil health – 33% of the earth's soils are degraded, and topsoil could run out in just 60 years. We have to understand that feeding the planet should not be at the cost of the earth. Therefore, we should safeguard the health of soils.

> I am happy to mention here India during the Conference of the Parties, known as COP14, to the United Nations Convention to Combat Desertification in 2019,

ested land by 2030. The National Academy of Agricultural Sciences (NAAS) based on a brainstorming session held on December 9, 2021,

pledged to restore 26 million

hectares degraded and defor-

brought out a report titled 'Road Map for Rehabilitation of 26 Mha Degraded Lands in It has recommended among

other things farming community must be a part of the mechanism for defining the R&D agenda; introduction of national land use policy to arrest the ongoing land degradation happening due to diversion of good lands for other uses; promoting regenerative practices; building a lasting soil cover by bringing public institutions, NGOs and forestdependent communities on a common platform; extending public support for professional methods of composting; and educating farmers on the benefits of retaining maximum proportion of crop residue after

With environmental challenges mounting and ecosystems teetering on the brink of collapse, let us recognise the urgency of action, and we sow the seeds of hope for a brighter tomorrow. Let's use resources more efficiently while reducing potential environmental impacts. We should take every possible measure to enhance biodiversity and address land degradation by promoting best farming practices.

(The author is country head and managing director, Syngenta India Private Ltd. Views expressed are his personal.)

#### (This is an Advertisement for information purposes only and not for publication or distribution outside India and is not an Offer Document announcement)

and onion (43%) respectively,

However, non-vegetarian

reports Sandip Das.

thalis as per Crisil data

owing to a 16% drop in

prices of broiler meat

prices. However, veg

declined 7% on year



## SAKUMA EXPORTS LIMITED

Corporate Identification Number: L51909MH2005PLC155765 Our Company was initially formed as a partnership firm in the name of Sakuma Exports on December 1, 1998 at Mumbai and was subsequently converted into a Public

Limited Company under Part IX of the Companies Act, 1956 with the name of Sakuma Exports Limited vide Certificate of Incorporation dated August 31, 2005 and date of certificate of commencement of business September 05, 2005 issued by Registrar of Companies, Maharashtra. For details of changes in the registered office of our Company, please refer to the chapter entitled 'General Information' beginning on page no. 44 of the Letter of Offer

Registered Office: Aurus Chamber, A 301-302, Near Mahindra Tower, S S Amrutwar Lane, Worli-400013, Mumbai, Maharashtra, India; Tel. No.: +91 22 24999021/ 22; Email: companysecretary@sakumaexportsltd.com; Website: www.sakumaexportsltd.com;

OUR PROMOTERS: MR. SAURABH CHANDER MOHAN MALHOTRA AND MS. KUSUM CHANDER MOHAN MALHOTRA

Contact Person: Ms. Khyati Bipin Jobanputra, Company Secretary & Compliance Officer

ISSUE OF UP TO 7.89.84.298 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RE. 1.00 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS 25.30 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 24.30 PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO Rs. 19983.03 LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 33 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 98 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON APRIL 15, 2024 DAY, MONDAY(THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 25.30 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 243.

#### **BASIS OF ALLOTMENT**

The Board of Directors of Sakuma Exports Limited wishes to thank all its shareholders and investors for the response to the Issue which opened for subscription on Thursday, April 25, 2024 and closed on Friday, May 24, 2024 with the last date for on market renunciation of Rights Entitlements being Tuesday, May 7, 2024. Out of the total 4,040 Applications for 8,17,84,189 Rights Equity Shares, 407 Applications for 13,64,730 Rights Equity Shares were rejected (including nil Rights Equity Shares partially rejected) due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 3,633 for 7,89,84,298 Rights Equity Shares, which was 100.00 % of the Rights Equity Shares Allotted under the Issue including 2,28,32,891 Equity Shares as Allotment by the Board (on discretion)

The Basis of Allotment was finalized on Tuesday, June 4, 2024 by the Company in consultation with the Lead Manager to the Issue, the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Board of Directors of the Company, at its meeting held on June 4, 2024, took on record the Basis of Allotment so approved, and approved the allotment of 7,89,84,298 Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We hereby confirm that all the valid Applications have been considered for Allotment.

The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is as under:

| Cotococu              | Applications | Applications Received |          | Equity Shares Applied for |         |          | Equity Shares allotted |         |  |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------|---------------------------|---------|----------|------------------------|---------|--|
| Category              | Number       | %                     | Number   | Value (₹)                 | %       | Number   | Value (₹)              | %       |  |
| Eligible Shareholders | 3,486        | 95.95%                | 62827396 | 1589533119                | 78.12%  | 61392235 | 1553223546             | 77.73%  |  |
| Renouncees            | 147          | 4.05%                 | 17592063 | 445079193.9               | 21.88%  | 17592063 | 445079194              | 22.27%  |  |
| Total                 | 3,633        | 100.00%               | 80419459 | 2034612313                | 100.00% | 78984298 | 1998302739             | 100.00% |  |

Summary of Allotment is as under

| Category              | No. of valid CAFs<br>(including ASBA applications)<br>received | No. of Rights Equity Shares<br>accepted and Allotted against<br>Rights Entitlement (A) | No. of Rights Equity Shares accepted<br>and Allotted against Additional<br>Rights Equity Shares applied for (B) | Total Rights Equity<br>Shares accepted and<br>allotted (A+B) |  |
|-----------------------|--|--|---|--|--|
|                       | Number   | Number   | Number  | Number   |  |
| Eligible Shareholders | 3,486  | 11688413   | 49703822  | 61392235   |  |
| Renouncees            | 147  | 510851   | 17081212  | 17592063   |  |
| Total                 | 3633   | 12199264   | 66785034  | 78984298   |  |

The total shares allotted were 56151407 Equity Shares. The Board has decided at their discretion to allot the 22832891 shares available to the applicants who have applied for the non-allotted portion under provision mentioned under point No E of page no 264 & 265 of Letter of Offer.

Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors who have provided their email address, have been sent on their email address on or about June 6, 2024 and Investors who have not provided their email address, is being physically dispatched to their Indian address provided by them, is being completed on or about June 7, 2024. The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on June 5, 2024. The Listing application was filed with BSE on June 5, 2024. The credit in respect of allotment of Equity Shares offered pursuant to the Issue in dematerialised form in NSDL and CDSL, as applicable may be completed on or about June 7, 2024.

upon receipt of trading permission, applications for the same are being made, and shall be traded under same ISIN INE190H01024 as the existing Equity Shares of the Company. The trading is expected to commence on or about Tuesday, June 11, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement will be sent to NSDL and CDSL on receipt of listing permission from BSE and NSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE

nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE

It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by SE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer dated April 8, 2024 filed with the

BSE, NSE and the Securities and Exchange Board of India.

FIRST OVERSEAS CAPITAL LIMITED

1-2 Bhupen Chambers, Dalal Street, Fountain, Mumbai -400 001, Maharashtra, India

Tel No.: +91 22 4050 9999 Email: mb@focl.in

Investor Grievance Email: investorcomplaints@focl.in Website: www.focl.in

Contact Person: Mr. Rushabh Shroff

SEBI Registration No: INM000003671

Bigshare Services Pvt. Ltd. **BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** 

Office No S6-2, 6th floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra

Email: rightsissue@bigshareonline.com Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com

Contact Person: Mr. Vijay Surana SEBI Registration Number: INR000001385

Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/ post issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount buckno. ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA.

THE LEVEL OF SUBSCRPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For SAKUMA EXPORTS LIMITED

Date: June 6, 2024 Place: Mumbai

Mr. Saurabh Malhotra Managing Director

Disclaimer: Sakuma Exports Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer (LOF) with the SEBI, BSE and NSE. The LOF shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; the website of NSE at www.nseindia.com the website of the Company at www.sakumaexportsltd.com and the website of the Lead Manager at www.focl.in. Investors should note that investment in equity shares involve a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 20 of the LOF. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States.

Place: Hisar Date: June 6, 2024

## NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

Regd. Office: 28 Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015 Phone No.: (011) 45021854, 45021812

of seeking approval of its Members for the appointment of Directors through Postal Ballot to be set out in the Notice. The Postal Ballot process shall be in accordance with the Section 108 and Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Further, pursuant to Regulation 17(IC) of the Securities Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, approval of shareholders for appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Accordingly, approval of the shareholders shall be obtained through the process of said Postal Ballot. Provisions of section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 SEBI LODR") read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA") Circulars") and other applicable laws and regulations, as amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), allowed the companies to conduct the Postal ballot process by sending the notice in electronic form only. Accordingly, the Postal Ballot process shall be conducted through remote e-voting facility of Link ntime India Private Limited ('Link Intime').

to the Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective depository participants in accordance with the MCA Circulars. As per the applicable MCA Circulars, no physical copies of the Notice of Postal Ballot will be sent to any Shareholder/Member. The Notice will also be available on the website of the Company www.nalwasons.com and websites of Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com In view of the above, the Company has provided the facility to its Members to register/ update

Manner of Registering/Updating Email Addresses: (a) Members holding equity shares of the Company in Physical Mode, and who have not registered/updated their email addresses, are requested to register/update their email address by sending scanned copy of signed request letter mentioning folio number,

their email addresses in the following manner and request them to register/update their email

addresses to timely receive the Notice of Postal Ballot and other communications:

the Company at investorcare@nalwasons.com (b) Members holding equity shares of the Company in Dematerialised Mode, who have not registered/updated their email addresses with their Depository Participants (DP), are requested to register/update their email addresses with the DP with whom they maintain their

The Members will be provided e-voting facility to enable them to cast their vote electronically by e-voting on the Item(s) mentioned in the Notice of the Postal Ballot to be sent to the shareholder. The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited ('Link Intime') to provide e-voting facility to its Members. The detailed instructions of the e-voting are provided in the Notice of the Postal Ballot to be sent to the shareholder.

through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depository/Depository/Participants, may generate login credentials as per the

For Nalwa Sons Investments Limited (Ajay Mittal)

financialexp.epapr.in

Company Secretary

New Delhi

For further details, see "Terms of the Issue" on page 243 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM

It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE,

COMPANY SECRETARY AND LEAD MANAGERS TO THE ISSUE **REGISTRAR TO THE ISSUE** COMPLIANCE OFFICER

Tel No.: +91 22 62638200

Website: www.bigshareonline.com

MS. KHYATI BIPIN JOBANPUTRA

Mumbai, Maharashtra, India

Tel. no. +91 22 24999021/22

Aurus Chamber, A 301, Near Mahindra

Tower, S S Amrutwar Lane, Worli-400013,

companysecretary@sakumaexportsltd.com

Website: www.sakumaexportltd.com

Sabha elections, "the changed political scenario" where the BIP will no longer enjoy absolute majority in the Lok Sabha, and that the new government will be an NDA government.

Sources said the meeting

with the RSS leaders was in the

context of the outcome of the Lok

met to "exchange notes, take perceptions from each other and share the impact of the electoral outcome".

## much lower than its target of 370

RSS presence has changed The leaders, sources said,

Swearing-in on Sunday,

portfolio talks intensify

The BIPwon 240 seats, 63 less than its 2019 tally of 303, and

293 seats in the House of 543. On the BJP-RSS ties, sources said while the "situation keeps

changing... the relationship remains...it will improve." Last month, asked how the

for the party and 400-plus for the

NDA-the coalition ended up with

between the time of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and now, Nadda had said, "Shuru mein hum aksham honge, thora kum honge, RSS ki zaroorat padti thi... Aaj hum badh gaye hain, saksham hai... toh BJP apne aap ko chalati hai".

Branch office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana, Phone No: (01662) 222471-83; Email Id.: investorcare@natwasons.com, Website: www.natwasons.com NOTICE OF POSTAL BALLOT Shareholders are hereby informed that Nalwa Sons Investments Limited (NSIL) is in the process

Pursuant to the applicable MCA Circulars, the Notice of the Postal Ballot will be sent only by email

complete address and the email address to be registered along with self attested copy of the PAN Card and any document supporting the registered address of the Member, by email to

Demat Account. Manner of Casting Vote(s) through E-Voting:

The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the Members instructions given in the Notice of the Postal Ballot to be sent to the shareholder. Shareholders are requested to carefully read the instructions contained in the Notice of the Postal Ballot to be sent to the shareholder

30 के उपनियम (5) के उपवाक्य (क) के मामले में सॉल्वर लाइफ टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U27100DL2016PTC299750) जिसका रजिस्टीकत कार्यायल : सी-104, कावेरी

अपार्टमेंट, अलकनंदा, कालकाजी, साऊथ दिल्ली,

दिल्ली-110019, इंडिया में है के मामले में

आम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी 03.06.2024 को आयोजित असाधारण बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाण राज्य' में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी के संस्था वे मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्ठि चाहने हेत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरप से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित हें साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचन के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-: विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके नीचे उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

सी-104 कावेरी अपार्टमेंट अलकनंदा कालकाजी साऊथ दिल्ली, दिल्ली-110019, इंडिया कृते सॉल्वर लाइफ टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेट

লিখি : 05.06.2024 नक्ल गोयल स्थान : नई दिल्ली बीआईएन । 02455791 पता : बी-798, ग्रीन फील्ड कॉलोनी सुरजकुड, संकटर-४३, फरीदाबाद-121003, हरियाणा

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय

के लिए विज्ञापन केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज

के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन

ऐस क्लावाक्स सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यावय बी-1/30, 1ला तल, जनकपुरी, दिल्ली-110058 में है, के मामले में

(ए) के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "**रा.रा** क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 3 जून, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पं दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: प्लॉट नं. बी-1/30, 1ला तल, जनकपुरी, दिल्ली-110058 निर्देशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से ऐस क्लावाक्स सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड

(निर्देशक) DIN: 02484965 5 सी-12, ब्लॉक सी, डीएलएफ फेज-1, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 तिथिः 07.06.2024 स्थानः नई दिल्ली

हस्तार/- दीपक तोमर

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

क्लावाक्स टेकनोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-1/30, 1ला तल, जनकपुरी, दिल्ली-110058 में है, के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "**रा.रा**. क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 3 जून, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र के पास आवेदन करने का

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पं दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: प्लॉट नं. बी-1/30, 1ला तल, जनकपुरी, दिल्ली-110058

निर्देशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से क्लावाक्स टेकनोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड हस्तार/- दीपक तोमर (निर्देशक) DIN: 02484965 5 सी-12, ब्लॉक सी, डीएलएफ फेज-1, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 तिथि: 07.06.2024 स्थान: नई दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय

के लिए विज्ञापन केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली. 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन

एटॉमिकलांच सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यावय बी-1/30, 1ला तल, जनकपुरी, दिल्ली-

110058 में है, के मामले में ....आवेदक

एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 3 जन, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम,

2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक. उत्तर क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक पृति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पं दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: प्लॉट नं. बी-1/30. 1ला तल. जनकपरी. दिल्ली-110058 निर्देशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से

एटॉमिकलांच सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड हस्तार/- दीपक तोमर (निर्देशक) DIN: 02484965 5 सी-12, ब्लॉक सी, डीएलएफ फेज-1, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 तिथि: 07.06.2024 स्थान: नई दिल्ली

**PUBLIC NOTICE** 

Notice is hereby given that the following shares of M/s Escorts Kubota Limited are stated to have been lost/misplaced or stolen and the registered holder(s)/applicant(s) has /have applied for issue of duplicate share certificate(s):

**Share holder** Certificate No's **Distinctive No's** Name(s) / Folio no. From То From То 27594429 - 27594478 605163 - 605164 30831009 - 30831058 | 200 734857 - 734858 Sanjay Sikri / ESC0053654 812920 - 812921 33844429 - 33844478 1364571 65705726 - 65705775

Any person(s) who has / have any claim in respect of such aforesaid equity shares must lodge claim in writing with the Company within 15 days from the date of publication of this notice otherwise Company shall cancel the original share certificate(s) and issue duplicate share certificate(s) to the registered holder(s) / applicant(s). (Sanjay Sikri) Place: Delhi, NCR

H No. 41, Pocket-22, Sector-24, Rohini, New Delhi-110085. Date: 07.06.2024

फार्म नं. देखें विनियमन 33 (2)

पंजी. ए/डी, दस्ती द्वारा अन्यथा प्रकाशन द्वारा

कार्यालय : वसुली अधिकारी-1/II ऋण वसली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) 4 था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 ऋणों की वसूली एवं दिवालिया अधिनियम, 1993 की धारा 25-28 के साथ पठित आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 53 के अंतर्गत सूचना

टीआरसी/346/2022

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम मै. सचदेवा ब्रदर्स सेवा में.

संबंधित अधिकारीगण . नगर निगम/जल बोर्ड (संबंधित क्षेत्र)

2. विद्युत विभाग (संबंधित क्षेत्र) आयकर/बिक्री कर विभाग, आदि (संबंधित क्षेत्र) 4. दि.वि.प्रा./ विकास प्राधिकरण (संबंधित क्षेत्र)

सीएच बैंक/सीएच वित्तीय संस्थान के बकाये की वसूली के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति की बिक्री करने का प्रस्ताव

सम्पत्ति का विनिर्देशन

सम्पत्ति सं. बी-1/2, कृष्णा नगर, मैन नगर मार्केट, दिल्ली-51 पर निर्मित सम्पत्ति माप 131 वर्ग यार्ड्स का पश्चिमी भाग, भूतल तथा प्रथम तल पर, माप 147.78 वर्ग यार्ड्स। 2. एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि इस सूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर उक्त सम्पत्ति

पर, यदि कोई हो, आपकी देयताओं को उद्घाटित करें जिसमें विफल होने पर यह माना जायेगा कि आपके विभाग के प्रति उक्त सम्पत्ति पर कोई देयता नहीं है। मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज दिनांक 23.04.2024 को दी गई।

वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)

> फॉर्म नं. आरएससी-4 दिनयम 3(3) के अनुसार, चंडीगढ़ में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंच के समय सीपी नंबर 34/सीएचडी/एचआरवाई/2024

(कंपनी की शेयर पूंजी में कदौती की प्रक्रिया) नियम, 2016, के नियम 2(1) के साथ पर्डे

कंपनी अधिनियमए 2013 की घारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के मामले मेंए राष्ट्रीय कंपनी विधि

यके इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन: U74110HR2008PTC056054 स्मार्ट वक्सं, दूसरी मंजिल, टावर-बी, गोल्फ ब्यू टावर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-42, ग्रुयाम-122002 , हरियाणा

सुचना का प्रकाशन

क्रात हो कि उपरोक्त कंपनी की शेवर पूंजी को रू. 23,65,95,760/- (तेईस करोड़ पैंसट लाख पिचानवे हजार सात सौ साठ रुपये मात्र) से रु. 10,55,47,370/- (रुपए दस करोड़ प्रचपन लाख सैंतालीस हजार तीन सौ सत्तर मात्र)। तक कम करने की पृष्टि के लिए 14 मई 2024 को चंडीगढ़ बेंच रियत ट्रिब्यूनल में एक आवेदन प्रस्तृत

प्रदत्त शेवर पंजी की उपरोक्त कमी रूपये की राशि भेजने से होगी। कंपनी के शेवरधारकों को रु. 13.00,00.003/-

(कंवल तेरह करोड़ तीन रुपये) और नेशनल कंपनी लॉ दिब्युनल (कंपनी की शेवर पूंजी में कमी की प्रक्रिया) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा ६६ के अनुसार, कंपनी के संचित घाटे रु. १०,४८,३८७/- (केवस दस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ सत्तासी) नियम, 2016, जो कंपनी की सब्सक्राइन्ड, जारी और भुगतान की गई पूंजी में 55,39% की कमी के बराबर है। व्यक्तिगत लेनदारों को नोटिस माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच के आदेश दिनांक 31 मई

2024 के संदर्भ में जारी किए गए हैं। उक्त आदेश के संदर्भ में, कंपनी को लेनदारों से आपलियां मांगने के लिए समाचार पत्र में एक नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। और हितचारक। कंपनी दारा 30 अप्रैल 2024 दिन तैयार की गई लेनदारों की सूची सोमवार से शुक्रवार के बीच सभी कार्य दिवसों पर सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध है, जब निरीक्षण उपलब्ध होगा। यदि कंपनी के किसी लेनदार या हितचारक को आवेदन वा उसमें दिए गए विवरण पर कोई आपति है लेनदारों की

सची , उसे (समर्थक दस्तावेजों के साथ) और उसके नाम के बारे में विवरण भेजा जा सकता है और पता और उसके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता, यदि कोई हो, अधोहस्ताक्षरी को भेजें मैसर्स युक्ते इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्ट वर्क्स, दूसरी मंजिल, टॉवर बी, गोल्फ ब्यू टावर, गोल्फ कोर्स रोड, संक्टर-42, गुरुग्राम-122002, हरियाणा इस तारीख से तीन महीने के भीतर

यदि ऊपर बताए गए समय के भीतर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो लेनदारों की सूची में सभी प्रविष्टियों की जाएंगी कंपनी की शेयर पूंजी को कम करने के लिए उपरोक्त याचिका के तहत कार्यवाही को सही माना जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 6 सितंबर 2024 को स्नवाई तय की गई है जिस पर ट्रिब्द्नल आवेदन स्नेगा यदि कोई लेनदार या हितधारक स्नवाई में भाग लेने का इरादा रखता हैए तो उसे उपस्थित होना चाहिए अपनी आपतियोंए के साथ यदि कोई हो तो।

> युके इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिएएसडीध विक्रम प्लाहा

दिनांक 7 जून, 2024 स्थानः गृहगाव

सीएफओ एवं निदेशक डीआईएन: 08718154

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन: L35911HR1965PLC004485

**पंजीकृत कार्यालयः** जय स्प्रिंग्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर – 135001, हरियाणा **कॉर्पोरेट कार्यालयः** यूनिट नंबर 408, चौथी मंजिल, टॉवर-बी, वाटिका माइंडस्केप्स, सेक्टर-27डी, एनएच2, फरीदाबाद-121003 (एचआर) टेलीफोनः 0129-4006885; वेबसाइटः www.jaispring.com.

ईमेल आईडी: investor.relations@jaispring.com

वित्त वर्ष 2016-17 (अंतिम) की अवैतनिक और दावा न की गई लाभांश राशि और कंपनी के इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा बनाए गए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ( आईईपीएफ ) डीमैट खाते में स्थानांतरित करना। इसके द्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 124(5) और (6) के अनसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के नियम 5 और 6 के साथ, कंपनी को अनिवार्य रूप से सात वर्षों की अविध के लिए दावा न किए गए या भुगतान न किए गए लाभांश को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ( आईईपीएफ ) में स्थानांतरित करना

एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 124(5) और (6) के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 ('नियम') के नियम : और 6 के अनुसार, कंपनी को अनिवार्य रूप से सात वर्षों की अवधि के लिए दावा न किए गए या भुगतान न किए गए लाभांश को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ( आईईपीएफ ) में स्थानांतरित करना

कंपनी को ऐसे सभी शेयरों को भी आईईपीएफ डीमैट खाते में स्थानांतरित करना आवश्यक है, जिनके संबंध शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भूगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं

किया गया है। आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने के बाद दावा न किए गए लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

तदनुसार, निम्नलिखित को आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित किया जाना है:

| आईईपीएफ में<br>स्थानांतरण का विवरण                   | आईईपीएफ में स्थानांतरण<br>की नियत तिथि | कंपनी को अग्रेषित किए<br>जाने वाले दावे की तिथि |
|--|--|---|
| दावा न किया गया लाभांश वित्त वर्ष<br>2016—17 (अंतिम) | 01 सितंबर, 2024                        | 25 अगस्त, 2024<br>को या उससे पहले               |
| संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिग                       | त नोटिस पहले ही भेजे ज                 | 11 चुके हैं, जिनके शेयरों के साथ लाभ            |

को उचित कार्रवाई करने के लिए वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाना है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट https://www.jaispring-com/unclaimed-dividend.ht उस पर उन शेयरधारकों का विवरण भी अपलोड किया है जिनके शेयर और लाभांश IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित होने वाले हैं। यदि आपने पिछले सात लगातार वर्षों से अपने लाभांश का दावा नहीं किया है और आपके फोलियो / डीमैट खाते में राशि का भूगतान नहीं किया गया है/दावा नहीं किया गया है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज भेजकर उपरोक्त लाभांश के लिए अपना दावा प्रस्तत करें:

(1) सभी संयुक्त धारकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक औपचारिक पत्र, यदि कोई हो (2) पैन कार्ड और पते के प्रमाण की स्व–सत्यापित प्रतिय

(3) रद्द किए गए चेक या बैंक स्टेटमेंट, पासबुक आदि की प्रतिय और

(4) हाल ही में सेबी परिपत्र के अनुसार लागू केवाईसी फॉर्म। फॉर्म/प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.jaispring.com पर निवेशक संबंध टैबझ कॉर्पोरेट प्रशासनझ केवाईसी अपडेशन के अंतर्गत उपलब्ध हैं। पया उपरोक्त दस्तावेज कंपनी या उसके रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट यानी मेसर्स

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को नीचे दिए गए पते पर भेजें:--रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को

जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड मथरा रोड सेक्टर-27डी.

फरीदाबाद—121003. हरियाणा संपर्क नंबर 0129—4006885 ईमेलः investor.relations@jaispring.com संपर्क व्यक्तिः श्री परवीन शर्मा

स्थानः फरीदाबाद

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चौथी मंजिल, टॉवर बी, वाटिका माइंडस्केप्स, डी-153 ए. पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020 फोन नंबर: 011-40450193-97 ईमेलः parveen@skylinerta.com; grievances@skylinerta.com

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि यदि निर्धारित समय अवधि के भीतर लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है या दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी को बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त नियत तिथि तक शेयरों और लाभांश को आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित करना वैधानिक रूप से आवश्यक होगा।

कपया यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त शेयरों के संबंध में अर्जित होने वाले सभी बाद के कॉर्पोरेट लाभ जैसे बोनस शेयर, लाभांश आदि भी उक्त आईईपीएफ डीमैट खाते में जमा किए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ खाते में लाभांश और शेयरों के हस्तांतरण के बाद, शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा न किए गए लाभांश राशि और शेयरों दोनों का दावा आईईपीएफ की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ को ऑनलाइन आवेदन करके कर सकते हैं। www-iepf-gov-in पर जाकर इसकी विधिवत हस्ताक्षरित भौतिक प्रति

कंपनी को फॉर्म आईईपीएफ -5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ भेजनी होगी।

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

प्रवीण लखेरा कंपनी सचिव एवं प्रमुख- विधि दिनांकः ०६ जून, २०२४

एनडीटी ट्रेड हाउस प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) परिसमापक का पता: बी-572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद हरियाणा-121001, ईमेल आईडी: liq.ndttradehouse@gmail.com

ई–नीलामी बिक्री सूचना सूचना दी जाती है कि नीचे दी गई तालिका में बताई गई कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियां सेवा प्रदात मेसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के वेबसाइट http://www.auctiontiger.in के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा बेची जाएंगी,

नीलामी की तिथि और समय बुधवार, 26.06.2024 दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे के बीच। ईएमडी जमा करने की अंतिम 24.06.2024 को शाम 05:00 बजे से पहले निरीक्षण तिथि और समयः 22.06.2024 को सुबह 11.00 बजे से शाम 04:00 बजे के बीच , निरीक्षण के लिए संपर्क किया जाने वाला व्यक्ति श्री राकेश भाटिया मोबाइल: 9310278000

ईएमडी (रु.) वृद्धिशील बोली आरक्षित (लाखों में) (लाखों में) 15.84 खाता संख्या 71/76 मुस्तिल संख्या—51 किला संख्या 13/3/1/2/ (2-0), गांव-मित्रोल तहसील होडल जिला पलवल, हरियाणा में स्थित भूमि और भवन सहित संपूर्ण इकाई जिसका निर्मित क्षेत्रफल 823 वर्ग मीटर है, और प्लांट और मशीनरी जो मूल रूप से एक आटा

ईएमडी (वापसी योग्य) इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से "एनडीटी ट्रेड हाउस प्राइवेट लिमिटेड" के खाते में एक्सिस बैंक खाता संख्या 923020016427718 और आईएफएसर्स कोड UTIB0004305 के माध्यम 24.06.2024 को या उससे पहले से देय होगी। ई-नीलामी बिक्री व विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज देखें। ई-नीलामी से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए,श्री प्रवीण कुमार थेवर (एमः 6351896834) से Praveen.thevar@Auctiontiger.net पर या लिक्विडेटर से उनके ई-मेल liq.ndttradehouse@gmail.com और मोबाइल नंबर 9810549696 पर संपर्क करें। संपर्क व्यक्ति राकेश भाटिया-मोबाइलः 9310278000

एनडीटी ट्रेड हाउस प्राइवेट लिमिटेड ( परिसमापन में) के लिए परिसमापक स्थानः नई दिल्ली आईपी रजिस्टर नं. आईबीबीआई / आईपीए-002 / आईपी-एन00568 / 2017-18 / 11724 दिनांकः 06.06.2024 एएफए नं.: एए2/11724/02/171224/203142

> राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नई दिल्ली, नई दिल्ली पीठ के समक्ष कंपनी याचिका (सीएए) संख्या ३३/एनडी/२०२४ से संबंधित

कंपनी आवेदन (सीएए) संख्या २१ / एनडी / २०२४ कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २३०-२३२, कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 16 के साथ पठित

श्री जी लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड,

जिसका पंजीकृत कार्यालय २०८, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली - ११००२० में है ....(हस्तांतरक कंपनी १ / याचिकाकर्ता कंपनी १)

जेपीआर लेब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय २०८, ओखला ओद्योगिक एस्टेट, फेज-॥, नई दिल्ली - ११००२० में है

.....(हस्तांतरक कंपनी २ / याचिकाकर्ता कंपनी २) जसपैक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय २०८, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज-११, नई दिल्ली - ११००२०

के साथ

मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय २०८, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज- III, नई दिल्ली - 110020 में है

.....(हस्तांतरक कंपनी ३ / याचिकाकर्ता कंपनी ३)

श्री जी लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरक कंपनी १/याचिकाकर्ता कंपनी १) और जेपीआर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरक कंपनी २/याचिकाकर्ता कंपनी २) और जसपैक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरक कंपनी ३/याचिकाकर्ता कंपनी ३) का मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड (हस्तांतरिती कंपनी/ **याचिकाकर्ता कंपनी 4)** के साथ विलय हेत व्यवस्था की योजना की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २३०-२३२ और अन्य लागु प्रावधानों के तहत एक याचिका याचिकाकत कंपनियों द्वारा ३० अप्रैल, २०२४ को प्रस्तुत की गई थी और याचिका पर ०९ जुलाई, २०२४ को नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के नई दिल्ली पीठ के समक्ष सनवाई निर्धारित की गई है उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता के अधिवक्त को अपने नाम और पते के साथ अपने इरादे की सूचना, स्वयं या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्साक्षरित भेजनी चाहिए, ताकि वह निर्धारित तिथि से २ (दो) दिन पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तक पहुंच नाए। याचिका की सुनवार्ड के लिए, जहां वह याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध के आधार र हलफनामें की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाये। याचिका की एक प्रति नीचे हस्ताशरकत हारा किसी भी व्यक्ति को निर्धारित शुल्क का भगतान करने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

एडवोकेट सुमन कुमार झा/एस. शिवा (याचिकाकर्ता कंपनियों के वकील) कृते कॉर्पेरिट प्रोफेशनल्स एडवाइजर एंड एडवोकेट्स डी-28, साउथ एक्सटेंशन-१, गई दिल्ली - ११००४९ दिनांक: 06 जुन, 2024 स्थान: नई दिल्ली मोवाइल - 9911626324

FSL

फ्रंटलाइन सिक्योरिटीज लिमिटेड सीआईएनः U65100DL1994PLC058837

पंजीकृत कार्यालयः एम-6, दूसरा तल, एम-ब्लॉक मार्केट ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048 कॉर्पोरेट कार्यालय-बी-22, सेक्टर-4, नोएडा (यूपी) -201301 वेबसाइटः www.fslindia.com, ईमेल आईडी: secretarial@fsltechnologies.com, टेलीफोनः 0120-2534067, फैक्सः +91-120-2534111

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ) कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ)

यह सूचना कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी "नियम") और उसके बाद किए गए संशोधन द्वारा जारी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया गया है। आईईपीएफ नियम, अन्य बातों के साथ-साथ उन अंतर्निहित शेयरों को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आईईपीएफ (निधि) में स्थानांतरित करने का प्रावधान करते हैं, जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों तक लाभांश का भूगतान या दावा नहीं किया गया है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम,2016 के नियम 6(1) के अनुसार, "अंतर्निहित शेयरों को प्राधिकरण द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए खोले गए प्राधिकरण के डीमैट खाते में ऐसे शेयरों के निधि में स्थानांतरित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा"।

उक्त नियमों के अनुसार, उन संबंधित व्यक्तिगत शेयरधारकों को संचार भेजा गया है, जिनका लाभांश वित्त वर्ष 2016-17 के लिए गैर भुगतान /अदावा किया गया है, कि कंपनी बिना किसी और सूचना के देय तिथि यानी 09 सितंबर, 2024 से 30 दिनों के भीतर आईईपीएफ में शेयरों के हस्तांतरण के लिए कार्रवाई शुरू करेगी।

कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित किए जाने वाले शेयरों का विवरण अपनी वेबसाइट www.fslindia.com पर भी अपलोड किया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने वाले शेयरों के विवरण को सत्यापित करने के लिए वेबसाइट पर निवेशक अनुभाग देखें।

यदि शेयरधारक 01 सितंबर, 2024 तक उपरोक्त लाभांश का दावा करने में विफल रहते हैं, तो कंपनी शेयरधारकों को कोई और सूचना दिए बिना, शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत कंपनी के अंतर्निहित इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के आईईपीएफ खाते में जमा करने की कार्यवाही करेगी। कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार दावा न किए गए लाभांश राशि और आईईपीएफ में स्थानांतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि दावा न किए गए लाभांश और आईईपीएफ प्राधिकरण के आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित किए गए शेयर, ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उनके द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता है।

संबंधित शेयरधारक, जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं, वे कृपया ध्यान दें कि कंपनी नियमों के अनुसार आईईपीएफ खाते में शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा रखे गए मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और इस तरह के जारी होने पर, उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही रद्द हो जाएंगे और उन्हें गैर-परक्राम्य माना जाएगा। शेयरधारक यह भी ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण को नियमों के अनुसार आईईपीएफ खाते में शेयरों के हस्तातरण के उद्देश्य से कपना द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाना चाहिए।

किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों मेसर्स एसकेआई कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए),718, डॉ. जोशी रोड, करोल बाग,नई दिल्ली-110005,फोन नंबर:011-45046000 / 30, ईमेल आईडी: contact@skicapital.net से संपर्क करें।

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

फ्रांटलाइन सिक्योरिटीज लिमिटेड के लिए गौरी शंकर पांडे (निदेशक)

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

क्रोकी सरकार, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

क्रोकी टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यावय बी-1/30, 1ला तल, जनकपुरी, दिल्ली-110058 में है, के मामले में

रतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "**रा.रा**. क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 3 जून, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र के पास आवेदन करने का पुस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पं दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: बी-1/30, 1ला तल, जनकपुरी, दिल्ली-110058 निर्देशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से

क्रोकी टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड

(निर्देशक) DIN: 02484965

हस्तार/- दीपक तोमर

हस्ता /

5 सी-12, ब्लॉक सी, डीएलएफ फेज-1, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 तिथि: 07.06.2024 स्थान: नई दिल्ली

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

(CIN: U28939DL2002PTC114374) जिसका पंजीकृत कार्यालयः **बी-6/20, एल. एस. सी** सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 में हैं, के मामले में

संधार दुलिंग प्राइवेट लिमिटेड

....आवेदक कंपनी /याचिकाकर्ता एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 ि धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती i जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में थ्यानांतरित करने के लिए **29 मई 2024** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पृष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतर से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है ते वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो. के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14)। दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कों म्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें । बी—6 / 20, एल.एस.सी. सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से संधार दुलिंग प्राइवेट लिमिटेड हस्ता/-

अजय कुमार राघव दिनाक: 06.06.2024 (निदेशक) स्थानः नई दिल्ली डीआईएन:09380468

उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता /

[देखें विनियमन 33 (2)

पंजी ए/डी, दस्ती द्वारा अन्यथा प्रकाशन द्वारा कार्यालयः वसुली अधिकारी- 1/11

> ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) 4था तल, जीवन तारा बिलिंडग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ऋणों की वसूली एवं दिवालिया अधिनियम, 1998 की धारा 25-28 के साथ पठित आय कर

अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 53 के अंतर्गत सूचना आरसी / 170/2018

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम मै० श्री साई होजिअरी एवं अन्य

संबंधित अधिकारीगणः 1. नगर निगम/जल बोर्ड (संबंधित क्षेत्र), 2. विद्युत विभाग (संबंधित क्षेत्र)

आय कर/बिक्री कर विभाग, आदि (संबंधित क्षेत्र)

।. दि.वि.प्रा./विकास प्राधिकरण (संबंधित क्षेत्र) सीएच बैंक/ सीएच वित्तीय संस्थान के बकाये की वसुली के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति की बिक्री करने का प्रस्ताव किया जाता है:

सम्पत्ति सर्वे नं. पुराना नं. एनडब्ल्यू–143 तथा नया नं. एनडब्ल्यू–143 ए, खसरा नं. 19/3 में, ग्राम ख्याला, ब्लॉक-एनडब्ल्यू

विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-110018 . एतद्द्वारा आपको निर्देशित दिया जाता है कि इस सूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर उक्त सम्पत्ति पर् यदि कोई हो, आपकी देयताओं को उदघाटित करें जिसमें विफल होने पर यह माना जायेगा कि आप के विभाग के प्रति

उक्त सम्पत्ति पर कोई देयता नहीं है।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज दिनांक 23.04.2024 को दी गई।

वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1

23.04.2024

### नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड

सीआईएन : L65993DL1970PLC146414 पंजी. कार्यालय : 28 नजफगड रोड, मोती नगर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110 015

फोन नंबर (011) 45021854, 45021812, शाखा कार्यालय : ओ. पी. जिंदल मार्ग, हिसार-125005, हरियाणा फोन नंबर (01662) 222471-83

ई-मेल आईडी : investorcare@nalwasons.com, वेबसाइट : www.nalwasons.com

डाक-मतदान सूचना

तदहारा शेयरवारकों को सुचित किया जाता है कि नलवा सन्त इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड (एनएसआईएल गेटिस में निर्धारित डाक मतदान के माध्यम से निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपने सदस्यों की स्वीकृरि मांगने की प्रक्रिया में है। डाक मतदान की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और धारा 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई, के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा सामान्य बैठकों के विषय में जारी सर्विवीय मानक तथा सेबी सुचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के अनुसार होगी। इसके भतिरिक्त, भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2015 के विनियम 17(आईसी) के अनुसरण में, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आगामी सामान्य बैठक अथवा नियुक्ति की तिथि से तीन माह की समयावधि,

जो भी पूर्वतर है, के भीतर लिया जाता है। तदनुसार, शेयरधारकों का अनुमोदन उक्त डाक मतदान की प्रक्रिया

के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नेयम 20 और नियम 22, भारतीय प्रतिमृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) वेनियमावली, 2015 ('संबी एलओडीआर') के विनियम 44 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांकित 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांकित 28 सितम्बर, 2020, 39/2020 दिनांकित 31 दिसम्बर, 2020, 10/2021 दिनांकित 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांकित 8 दिसम्बर, 2021, 03/2022 दिनांकित 5 मई, 2022, 11/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 तथा 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 (इसमें आगे सामूहिक रूप से "एमसीए सर्कुलर्स" कहे गए हैं) तथा अन्य लागू विधियों तथा विनियमों समय समय पर संशोधित (जिनमें उनके साविधिक संशोधन अथवा अस्थायी रूप से लागू पुनर–अधिनियमन सम्मिलित हैं) के प्रावधानों में कम्पनियों को डाक मतदान प्रक्रिया का संचालन केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में नेजने द्वारा करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, डाक मतदान प्रक्रिया लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लेमिटेड ("लिंक इनटाइम") की रिमोट ई—वोटिंग सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी।

जाएंगी, जिनका ई-मेल पता एमसीए सर्कुलर्स के अनुसार कम्पनी अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी ाटिसिपेंट्स के पास पंजीबद्ध है। एनसीए द्वारा लागू सकुलसे के अनुसार, किसी शेयरघारक/सदस्य को डाक मतदान की सचना की कोई मौतिक प्रति नहीं भेजी जाएगी। सचना कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com पर तथा स्टींक एक्सचेंजेज नामतः नैज्ञनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लेमिटेड की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। उपरोक्त के दृष्टिगत, कम्पनी ने अपने सदस्यों को अपने ईं—मेल पता निम्नलिखित विधि से पंजीकृत / अपडेंट

एमसीए हारा लागू, सर्कुलर्स के अनुसरण में, ढाक मतदान की सूचना केवल ई—मेल हारा उन सदस्यों को भेजी

हें लिए अपना ई—मेल पता यधासमय पंजीकृत / अपडेट करवा लें : ई—मेल पता पंजीकरण / अपडेट की विधि क) जिन सदस्यों के शेयर मौतिक रूप में हैं और अपना ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकृत / अपडेट नहीं करवाया है, वें फोलियों नंबर, पंजीकृत किए जाने हेतु पता और ई-मेल पता के उल्लेखयुक्त हस्ताह्मरित अनुरोध पत्र की स्केंग प्रति, पैन कार्ड तथा सदस्य के पंजीकृत पते के समर्थन में किसी दस्तावेज की

स्व-सत्थापित प्रति सहित कम्पनी को investorcare@naiwasons.com पर भेजकर अपना ई-मेल

करने की सुविधा प्रदान की है और उनसे अनुरोध है कि डाक मतदान की सूचना तथा अन्य सदेश प्राप्त करने

छ) जिन सदस्यों के शेयर अभौतिक रूप में हैं और अपना ई–मेल पता अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी के पास पंजीकृत / अपडेट नहीं करवाया है, वे अपना ई-मेल पता डीपी के पास पंजीकृत / अपडेट करवा सकते हैं. जहां उनका डीमेट खाता अनरक्षित है। ई—वोटिंग के माध्यम से वोट ढालने की विधि सदस्यों को डाक मतदान की सुधना में दिए जाने वाले वर्णित मद(मदी) पर उनका वोट ई--वोटिंग हारा

कम्पनी ने इसके सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("लिंक इनटाइम") की सेवाएं अनुबंधित की है। डाक मतदान की सूचना में ई-बोटिंग के विस्तृत अनुदेश वर्णित किए जाएगे। सदस्यों को ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉग-इन क्रेडेन्शियल्स ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन सदस्यों को ई-मेल प्राप्त नहीं हो अथवा जिनका ई-मेल पता कम्पनी,

इलेक्ट्रॉनिक विधि से डालने के लिए सक्षम बनाने हेतु ई-वीटिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुदेशों के अनुसार लॉग—इन क्रेडेन्शियल्स बना सकते हैं । शेयरधारकों से डाक मतदान की सूधना में दिए जाने वाले अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पड़ने का अनुरोध किया

बिपॉजिटरी / बिपॉजिटरी पार्टिसिपैंटस के पास पंजीकृत नहीं है, वे डाक मतदान की सुचना में दिए जाने वाले

कृते नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड स्थान : हिसार (अजय मित्तल) कंपनी सचिव दिनांक : 06 जून, 2024

13(2) नोटिस दिनांक / बकाया

(रुपये इकहत्तर लाख बहत्तर हजार

दिनांक / समय एव ंकब्जे

संपत्ति 1: 1:57 अपराह

हस्ता / - प्राधिकृत अधिकारी,

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

कब्जा सूचना

पता पंजीकत / अपडेट करवा सकते हैं।

जबिक, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षाहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और शक्तियों का प्रयोग करते हुए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकृत अधिकारी के रूप में सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं को मांग सूचना जारी करता है, जिसमें उधारकर्ताओं से संबंधित नामों के सामने उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्तन ोटिस की प्राप्ति की तारीख से, भूगतान और / या वसूली की तारीख तक किए गए प्रासंगिक खर्चों, लागतों, शूल्कों आदि के रूप में भविष्य के ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया था।

गारंटर / बंधककर्ता देय (रुपये में) का प्रकार दिनांक 13(2): 15-03-2024 1) श्री राहुल (आवेदक), 05-06-2024 दिनांक 11.03.2024 तक बैंक को देय राशि 32069630000191 2) श्रीमती बिमला समयः ०३:०८ अपराह्न रु.17,94,009 / - (सत्रह लाख चौरानबे हजार नौ (सह–आवेदक) सांकेतिक कब्जा रुपए मात्र) है। **सुरक्षित संपत्ति का विवरण:** किला नं. 38 / 16 / 3, क्षेत्रफल 93.44 वर्ग गज, सोनीपत जिले के लहराडा की आबादी में स्थित है। जो श्रीमती बिमल देवी, पत्नी श्री सेवा राम के स्वामित्व में है। सीमाः पूर्वः मकान सूरजमल, पश्चिमः गली/रास्ता 11 फीट चौड़ा, उत्तरः प्लॉट नरेश, दक्षिणः मकान 1) मेसर्स जय इलेक्टिक वर्कस एंड मशीनरी स्टोर तारीख: दिनांक 13(2): 05-02-2024 जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रोपराइटर श्री जय सिंह 05-06-2024 दिनांक 04.02.2024 तक बैंक को कर रहे हैं, 2) श्री जय सिंह (अब मृतक) जिसका 45288640000537 देय राशि रु.71,72,292/-

दो सौ बानबें मात्र) है। संपत्ति 2: 2:23 अपराह्न (उधारकर्ता), 3) श्री प्रदीप (गारंटर), 4) श्री परवीन सांकेतिक कब्जा (गारंटर), 5) श्रीमती सावित्री (गारंटर) सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति विवरण 1:- संपत्ति 40 वर्ग गज यानि 1 मरला 2 सरसई 3 मरला में से 40धा00 हिस्सा है खेवट संख्या 2430 खतौनी संख्या 2590 रेक्ट संख्या 138 किला संख्या 4 / 11(0—3) में स्थित है गांव खेवड़ा तहसील राई जिला सोनीपत के अनुसार बिक्री विलेख संख्या 2673 दिनांक 22—09—2014 श्रीमती सावित्री पत्नी जय सिंह के स्वामित्व में है। इस प्रकार घिरा हुआ हैः पूर्वः अन्य का घर।, पश्चिमः अन्य का घर।

प्रतिनिधित्व इसके एलआर द्वारा किया जा रहा है ए)

श्री प्रदीप, बी) श्री परवीन और सी) श्रीमती सावित्री

संपत्ति विवरण 2:- संपत्ति एक दुकान / प्लॉट 31 वर्ग गज 0-1 मरला है जो 19 मरला में से 1/39 हिस्सा है खेवट नंबर 54, खाता नंबर 123 मुस्तिल और किला नंबर 19//8/1/2/2(1—14) 8/2/2(0—5) वाका रकबा गांव बहालगढ़ तह. राई जिला सोनीपत हरियाणा में शामिल है जो श्री जय सिंह, पुत्र बलमतसिंह के स्वामित्व में है। सीमाः पूर्वः दूसरों की दुकान, पश्चिमः दूसरों की दुकान, दक्षिणः दूसरों की फैक्ट्री, उत्तरः खेड़ा

जबिक, यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्तियो पर कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओ और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों / सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथलेन–देन न करें और उक्त संपत्तियों / सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

स्थानः सोनीपत दिनांक: 07-06-.2024,

3206020000729616

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगलमें, चल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071 शाखा कार्यालयः 16 / 12. दसरी मंजिल, डब्ल्य.ई.ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलुर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071 शाखा कार्यालय: 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यु.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल

इ-नीलामी स्चना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता

| जाएग        | ी ।               | 7/7  | 36                    | 341              |   |   |   |   | 155                                      | VCI  |
|-------------|-------------------|--|-----------------------|------------------|---|---|---|---|--|--|
| क्र.<br>सं. | ऋण खाता<br>संख्या | मूल कर्जदार/सह-कर्जदार/<br>गारंटर के नाम   | 13-2 सूचना<br>की तिथि | कब्जे की<br>तिथि | 03.06.2024 तक वर्तमान<br>बकाया शेष  | सम्पत्ति के<br>निरीक्षण की तिथि<br>तथा समय                | आरक्षित<br>मूल्य रु. में                                  | जमा धरोहर राशि<br>(ईएमडी) रु. में                           | ई-नीलामी की<br>तिथि तथा<br>समय           | बोली जमा करने की अंतिम तिथि,<br>समय तथा स्थान  |
| 1           | 4793942000051     | <ol> <li>श्री धर्मपाल सिंह, पुत्र श्री आनंद सिंह (आवेदक),</li> <li>श्रीमती अनीता देवी, पत्नी श्री धर्मपाल सिंह (सह-आवेदक),</li> <li>श्री चंद्रपाल, पुत्र आनंद सिंह (सह-आवेदक)</li> </ol> | 29-12-2019            | 15-04-2024       | रु.20,81,682.94 (रुपये<br>बीस लाख इक्यासी हजार<br>छः सौ बयासी और चौरानबे<br>पैसे मात्र) | 21.06.2024<br>को 09:00 बजे<br>पूर्वा. से<br>05:30 बजे अप. | रु.12,83,000/-<br>(मात्र बारह लाख<br>अस्सी हजार<br>रुपये) | रु.1,28,300/- (एक<br>लाख अट्टाईस हजार<br>तीन सौ रुपए मात्र) | 11.07.2024<br>को<br>11:00 बजे<br>पूर्वा. | 10.07.2024 को 5.00 बजे<br>अप. से पूर्व,<br>जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,<br>16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए.<br>आर्च समाज रोड, करोल बाग, |

**प्रतिभत संपत्तियों का विवरण**: प्लॉट नं. वी-120, खसरा नं. 312 मिन, क्षेत्रफल माप 41.805 वर्ग मीटर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, एमआईजी, एलएचएस यनिट (छत के अधिकार रहित), रेल विहार, शेखन आवास समिति लिमिटेड, हदबस्त गांव सादल्लाबाद, परगना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद उ.प्र. में स्थित, श्रीमती अनिता देवी पत्नी श्री धरमपाल सिंह के स्वामित्व में संपत्तियों को ''जैसा है जहां है आधार'' और ''जो है यही है'' के आधार पर बेजा जा रहा है और ई-नीलामी 'ऑन लाइन' आयोजित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल https://bankauctions.in तथा

info@bankauctions.in/adesh@bankauctions.in पर संपर्क कर सकते हैं। ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारी श्री राकेश शर्मा (मो. 7230070463), श्री तुंग कुशिक (8105191533), श्री शिश कुमार (8700277112) और रंजन नाइक (9590858249) से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार, संपत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, हित के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। यह बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारों/गारंटर/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है। कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी।

Chandigarh

के माध्यम से बिक्री हेत सार्वजनिक सचना को सुचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसुली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) ''जैसा है जहां है आधार'' और ''जो है यही है'' के आधार पर यहां नीचे निर्धारित तिथि पर आयोजित की

दिनांकः 07.06.2024, स्थानः गाजियाबाद

दिनांकः 06.06.2024

स्थानः नोएडा

www.foreclosureindia.com पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी और ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मैसर्स 4क्लोजर; श्री उत्कर्ष आदेश संपर्क नंबरः 9515160064, ईमेल आईडीः

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

www.readwnere.com

"फार्म नं. आईएनसी—26" (कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपवाक्य (क) के मामले में

सॉल्वर लाइफ टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U27100DL2016PTC299750) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यायल : सी-104, कार्यरी अपार्टमेंट, अलकनंदा, कालकाजी, साजथ दिल्ली, दिल्ली-110019, इंडिया में है के मामले में

आम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी 03.06.2024 को आयोजित असाधारण बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाण राज्या" में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी के संस्था के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पृष्टि चाहने हेत् कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रश्तायित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह थावित या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शयथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 यते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को जनके नीचे उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

सी-104, कावेरी अपार्टमेंट, अलकनंदा, कालकाजी, साऊथ दिल्ली, दिल्ली-110019, इंडिया कृते सींब्वर लाइफ टेक्नोलीजीज प्राईवेट लिमिटेड हस्ता. /-तिथि : 05.06.2024 नकुल गोयल

स्थान : नई दिल्ली ढीआईएन : 02455791 पता : बी-798, ग्रीन फील्ड कॉलोनी सूरजकुंड, सेक्टर-43, फरीदाबाद-121003, हरियाण

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

के लिए विज्ञापन

ऐस क्लावाक्स सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यावय बी-1/30, 1ला तल, जनकपुरी, दिल्ली-110058 में है, के मामले में

!तद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "**रा.रा**. क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 3 जून, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पं दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें प्लॉट नं. बी-1/30, 1ला तल, जनकपुरी, दिल्ली-110058

निर्देशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से ऐस क्लावाक्स सॉल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड हस्तार/- दीपक तोमर (निर्देशक) DIN: 02484965 5 सी-12, ब्लॉक सी, डीएलएफ फेज-1 गुरुग्राम, हरियाणा-122002 तिथि: 07.06.2024 स्थान: नई दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दुसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन

के लिए विज्ञापन केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली. 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

ऋलावाक्स टेकनोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-1/30, 1ला तल, जनकपुरी, दिल्ली-110058 में है, के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "**रा.रा** क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 3 जून, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र के पास आवेदन करने का

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पं दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: प्लॉट नं. बी-1/30, 1ला तल, जनकपुरी, दिल्ली-110058 निर्देशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से

क्लावाक्स टेकनोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड हस्तार/- दीपक तोमर (निर्देशक) DIN: 02484965 5 सी-12, ब्लॉक सी, डीएलएफ फेज-1 गुरुग्राम, हरियाणा-122002 तिथि: 07.06.2024 स्थान: नई दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] एक राज्य से दसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन

के लिए विज्ञापन

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली. 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एटॉमिकलांच सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यावय बी-1/30, 1ला तल, जनकपुरी, दिल्ली-110058 में है, के मामले में

. पतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "**रा.रा**. क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 3 जून, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम. 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र

सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र के पास आवेदन करने का

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पं दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: प्लॉट नं. बी-1/30, 1ला तल, जनकपुरी, दिल्ली-110058 निर्देशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से

एटॉमिकलांच सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड हस्तार/- दीपक तोमर (निर्देशक) DIN: 02484965 5 सी-12, ब्लॉक सी, डीएलएफ फेज-1, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 तिथि: 07.06.2024 स्थान: नई दिल्ली

#### **PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that the following shares of M/s Escorts Kubota Limited are stated to have been lost/misplaced or stolen and the registered holder(s)/applicant(s) has /have applied for issue of duplicate share certificate(s):

| nas / nave applied for issue of auplieute shall continuate(s). |  |  |     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| Share holder<br>Name(s) / Folio no.                            | Certificate No's From To   | Distinctive No's From To   | Qty |  |  |  |  |  |
| Sanjay Sikri /<br>ESC0053654                                   | 605163 - 605164<br>734857 - 734858<br>812920 - 812921<br>1364571 | 27594429 - 27594478<br>30831009 - 30831058<br>33844429 - 33844478<br>65705726 - 65705775 | 200 |  |  |  |  |  |

Any person(s) who has / have any claim in respect of such aforesaid equity shares must lodge claim in writing with the Company within 15 days from the date of publication of this notice otherwise Company shall cancel the original share certificate(s) and issue duplicate share certificate(s) to the registered holder(s) / applicant(s). (Sanjay Sikri) Place: Delhi. NCR H No. 41, Pocket-22, Sector-24, Rohini, New Delhi-110085. Date: 07.06.2024

फार्म नं. देखें विनियमन 33 (2)

पंजी. ए/डी. दस्ती द्वारा अन्यथा प्रकाशन द्वारा कार्यालय: वसूली अधिकारी-1/II ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) 4 था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 ऋणों की वसुली एवं दिवालिया अधिनियम, 1993 की धारा 25-28 के साथ पठित आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 53 के अंतर्गत सूचना

टीआरसी/346/2022 23.04.2024 बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम मै. सचदेवा ब्रदर्स

. नगर निगम/जल बोर्ड (संबंधित क्षेत्र) 2. विद्युत विभाग (संबंधित क्षेत्र)

3. आयकर⁄बिक्री कर विभाग, आदि (संबंधित क्षेत्र) 4. दि.वि.प्रा./ विकास प्राधिकरण (संबंधित क्षेत्र)

सीएच बैंक/सीएच वित्तीय संस्थान के बकाये की वसूली के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति की बिक्री करने का प्रस्ताव किया जाता है : सम्पत्ति का विनिर्देशन

सम्पत्ति सं. बी-1/2, कृष्णा नगर, मैन नगर मार्केट, दिल्ली-51 पर निर्मित सम्पत्ति माप 131 वर्ग यार्ड्स का पश्चिमी भाग, भूतल तथा प्रथम तल पर, माप 147.78 वर्ग यार्ड्स। 2. एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि इस सूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर उक्त सम्पत्ति पर, यदि कोई हो, आपकी देयताओं को उद्घाटित करें जिसमें विफल होने पर यह माना जायेगा कि आपके विभाग

के प्रति उक्त सम्पत्ति पर कोई देयता नहीं है। मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज दिनांक 23.04.2024 को दी गई। वसूली अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)

फॉर्म नं. आरएससी-4 खिनयम 3(3) के अनुसार, चंडीगढ़ में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंच के समक्ष सीपी नंबर 34/सीएवडी/एवआस्वाई/2024

कंपनी अधिनियमए 2013 की धारा 66 और अन्य लाग् प्रावधानों के मामले मेंए राष्ट्रीय कंपनी विधि

(कंपनी की शेयर पूंजी में कटौती की प्रक्रिया) निवम, 2016, के नियम 2(1) के साथ पढ़ें

युके इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में युक्ते इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया प्राह्वेट लिमिटेड सीआईएन: U74110HR2008PTC056054

स्मार्ट वर्क्स, दूसरी मंजिल, टावर-बी, गोल्फ ब्यू टावर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-42, गुरुग्राम-१२२००२, हरियाणा

सुचना का प्रकाशन

द्वात हो कि उपरोक्त कंपनी की शेयर पूंजी को रू. 23,65,95,760/- (तेईस करोड़ पैंसठ लाख पिचानवे हजार सात सौ साठ रुपये मात्र) से रु. 10,55,47,370/- (रुपए दस करोड पंचपन लाख सैंतालीस हजार तीन सौ सतर मात्र)। तक कम करने की पृष्टि के लिए 14 मई 2024 को चंडीगढ़ बेंच रियत ट्रिब्यूनल में एक आवेदन प्रस्तृत

प्रदत्त शेयर पूंजी की उपरोक्त कमी रुपये की राशि भेजने से होगी। कंपनी के शेयरघारकों को रु. 13,00,00,003/-केवल तेरह करोड़ तीन रूपये) और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यनल (कंपनी की शेयर पंजी में कमी की प्रक्रिया) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के अनुसार, कंपनी के संचित घाटे रु. 10,48,387/- (केवल दस लाख अडतालीस हजार तीन सौ सत्तासी) निवम, 2016, जो कंपनी की सब्सक्राइंख, जारी और भगतान की गई पंजी में 55,39% की कमी के बराबर है।

व्यक्तिगत लेनदारों को नोटिस माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण , चंडीगढ़ बेंच के आदेश दिनांक 31 मई 2024 के संदर्भ में जारी किए गए हैं। उक्त आदेश के संदर्भ में, कंपनी को लेनदारों से आपत्तियां मांगने के लिए समाचार पत्र में एक नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। और हितधारक। कंपनी द्वारा 30 अप्रैल 2024 दिन तैबार की गई लेनदारों की सूची सोमवार से शुक्रवार के बीच सभी कार्य दिवसों पर सुबह 11.00 बजें से शाम 4.00 बजे तक निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध है, जब निरीक्षण उपलब्ध होगा।

यदि कंपनी के किसी लेनदार या हितघारक को आवेदन या उसमें दिए गए विवरण पर कोई आपति है लेनदारों की सुची, उसे (समर्थक दस्तावेजों के साथ) और उसके नाम के बारे में विवरण मेजा जा सकता है और पता और उसके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता , यदि कोई हो , अधोहस्ताक्षरी को मेर्जे मैसर्स युके इंडिया बिजनेस काउसिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्ट वर्क्स, दूसरी मजिल, टॉवर बी, गोल्फ ब्यू टावर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-42, ग्रुवाम-122002, हरियाणा इस तारीख से तीन महीने के मीतर

यदि ऊपर बताए गए समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो लेनदारों की सूची में सभी प्रविष्टियों की जाएंगी कंपनी की शेयर पूंजी को कम करने के लिए उपरोक्त याचिका के तहत कार्यवाही को सही माना जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 6 सितंबर 2024 को स्नवाई तय की गई है जिस पर ट्रिब्यूनल आवेदन स्नेगा यदि कोई लेनदार या हितधारक सुनवाई में भाग लेने का इरादा रखता हैए तो उसे उपस्थित होना चाहिए अपनी

आपत्तियोंए के साथ यदि कोई हो तो। युके इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिएएसडी६

विक्रम प्लाहा सीएफओ एवं निदेशक दिनाक 7 जून, 2024 स्थानः गुड्गांव डीआईएन: 08718154

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः जय स्प्रिंग्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर – 135001, हरियाणा कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट नंबर ४०८, चौथी मंजिल, टॉवर-बी, वार्टिका माइंडस्केप्स, सेक्टर-27डी. एनएच2. फरीदाबाद-121003 (एचआर)

टेलीफोनः 0129-4006885; वेबसाइटः www.jaispring.com. ईमेल आईडी: investor.relations@jaispring.com

वित्त वर्ष 2016–17 (अंतिम) की अवैतनिक और दावा न की गई लाभांश राशि और कंपनी के इक्विटी शेयरों को आईईपीएप प्राधिकरण द्वारा बनाए गए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ( आईईपीएफ ) डीमैट खाते में स्थानांतरित करना। इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 124(5) और (6) के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के नियम 5 और 6 के साथ, कंपनी को अनिवार्य रूप से सात वर्षों की अविध के लिए दावा न किए गए या भूगतान न किए गए लाभांश को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ( आईईपीएफ ) में स्थानांतरित करना

एतदृवारा सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 124(5) और (6) के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा. लेखा परीक्षा. हस्तांतरण और वापसी) नियम. 2016 ('नियम') के नियम 5 और 6 के अनुसार, कंपनी को अनिवार्य रूप से सात वर्षों की अवधि के लिए दावा न किए गए या भुगतान न किए गए लाभांश को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निध ( आईईपीएफ ) में स्थानांतरित करना

कंपनी को ऐसे सभी शेयरों को भी आईईपीएफ डीमैट खाते में स्थानांतरित करना आवश्यक है, जिनके संबंध शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है। आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने के बाद दावा न किए गए लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

| नुसार, गिम्नालाखरा का आइइपाए                    | म खाता न स्थानातारता किया उ            | ii θ∙   |
|---|--|---|
| आईईपीएफ में<br>स्थानांतरण का विवरण              | आईईपीएफ में स्थानांतरण<br>की नियत तिथि | कंपनी को अग्रेषित किए<br>जाने वाले दावे की तिथि |
| ग न किया गया लाभांश वित्त वर्ष<br>16—17 (अंतिम) | 01 सितंबर, 2024                        | 25 अगस्त, 2024<br>को या उससे पहले               |
| .0 \ \ \ \                                      | 10 1011                                | \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\          |

संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत नोटिस पहले ही भेजे जा चुके हैं, जिनके शेयरों के साथ लाभांश को उचित कार्रवाई करने के लिए वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाना है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट https://www.jaispring-com/unclaimed-dividend.ht उस पर उन शेयरधारकों का विवरण भी अपलोड किया है जिनके शेयर और लाभांश IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित होने वाले हैं। यदि आपने पिछले सात लगातार वर्षों से अपने लाभांश का दावा नहीं किया है और आपके फोलियो / डीमैट खाते में राशि का भूगतान नहीं किया गया है/दावा नहीं किया गया है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज भेजकर उपरोक्त लाभांश के लिए अपना दावा प्रस्तुत करें:

(1) सभी संयुक्त धारकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक औपचारिक पत्र, यदि कोई हो' (2) पैन कार्ड और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतिय

(3) रद्द किए गए चेक या बैंक स्टेटमेंट, पासबुक आदि की प्रतिय और (4) हाल ही में सेबी परिपत्र के अनुसार लागू केवाईसी फॉर्म। फॉर्म/प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.jaispring.com पर निवेशक संबंध टैबझ कॉर्पोरेट प्रशासनझ केवाईसी अपडेशन के

अंतर्गत उपलब्ध हैं। पया उपरोक्त दस्तावेज कंपनी या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी मेसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को नीचे दिए गए पते पर भेजें:-

| Chieful Life II (II (II (II (II (II (II (II (II (II | The transfer of the transfer o |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| कंपनी को  | रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को   |  |  |  |  |  |  |
| जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड                        | स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड   |  |  |  |  |  |  |
| चौथी मंजिल, टॉवर बी, वाटिका माइंडस्केप्स,           | डी—153 ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र,   |  |  |  |  |  |  |
| मथुरा रोड सेक्टर—27डी,                              | फेज–1, नई दिल्ली–110020  |  |  |  |  |  |  |
| फरीदाबाद—121003,                                    | फोन नंबरः 011-40450193-97  |  |  |  |  |  |  |
| हरियाणा   | ईमेलः parveen@skylinerta.com;  |  |  |  |  |  |  |
| संपर्क नंबर 0129—4006885                            | grievances@skylinerta.com  |  |  |  |  |  |  |
| ईमेलः investor.relations@jaispring.com              | संपर्क व्यक्तिः श्री परवीन शर्मा   |  |  |  |  |  |  |

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि यदि निर्धारित समय अवधि के भीतर लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है या दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी को बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त नियत तिथि तक शेयरों और लाभांश को आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित करना वैधानिक

कपया यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त शेयरों के संबंध में अर्जित होने वाले सभी बाद के कॉर्पोरेट लाभ जैसे बोनस शेयर, लाभांश आदि भी उक्त आईईपीएफ डीमैट खाते में जमा किए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ खाते में लाभांश और शेयरों के हस्तांतरण के बाद, शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा न किए गए लाभांश राशि और शेयरों दोनों का दावा आईईपीएफ की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ को ऑनलाइन आवेदन करके कर सकते हैं। www-iepf-gov-in पर जाकर इसकी विधिवत हस्ताक्षरित भौतिक प्रति कंपनी को फॉर्म आईईपीएफ -5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ भेजनी होगी।

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए हस्ता / – स्थानः फरीदाबाद प्रवीण लखेरा दिनांक: 06 जून, 2024 कंपनी सचिव एवं प्रमुख– विधि

एनडीटी ट्रेड हाउस प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) परिसमापक का पताः बी-572, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर-49, फरीदाबाद हरियाणा-121001, ईमेल आईडी: liq.ndttradehouse@gmail.com

<u>ई—नीलामी बिक्री सूचना</u> सूचना दी जाती है कि नीचे दी गई तालिका में बताई गई कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियां सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के वेबसाइट http://www.auctiontiger.in के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा बेची जाएंगी,

नीलामी की तिथि और समय बुधवार, 26.06.2024 दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे के बीच।

| l | तिथि                   | डा अना प्रस्त का जातन<br>:                   | 24.06.2024 को शाम 05:00 ब                             | जे से पहले                 |                               |  |
|---|------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|--|
|   | निरीक्षण तिथि और समय : |  | 22.06.2024 को सुबह 11.00<br>लिए संपर्क किया जाने वाला |                            |                               |  |
| ı | लॉ                     |  |   |                            | <del></del>                   |  |
| I | ल।<br>ट<br>सं.         | <b>वि</b>                                    | आरक्षित<br>मूल्य                                      | ईएमडी (रु.)<br>(लाखों में) | वृद्धिशील बोली<br>(लाखों में) |  |
|   | 1.                     | खाता संख्या 71/76 मुस्ति<br>13/3/1/2/ (2–0), | 158.4   | 15.84                      | 2                             |  |

ईएमडी (वापसी योग्य) इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से "एनडीटी ट्रेड हाउस प्राइवेट लिमिटेड" के खाते में एक्सिस बैंक खाता संख्या 923020016427718 और आईएफएससी कोड UTIB0004305 के माध्यम 24.06.2024 को या उससे पहले से देय होगी। ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज़ देखें। ई-नीलामी से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए,श्री प्रवीण कुमार थेवर (एमः 6351896834) से Praveen.thevar@Auctiontiger.net पर या लिक्विडेटर से **उनके ई-मेल** 

liq.ndttradehouse@gmail.com और मोबाइल नंबर 9810549696 पर संपर्क करें। संपर्क व्यक्ति राकेश भाटिया—मोबाइलः 9310278000

संपूर्ण इकाई जिसका निर्मित क्षेत्रफल 823 वर्ग मीटर है,

और प्लांट और मशीनरी जो मूल रूप से एक आटा

र्राग्रही जमा करने की अंतिम

अरुण गजवानी एनडीटी ट्रेड हाउस प्राइवेट लिमिटेड ( परिसमापन में) के लिए परिसमापक स्थानः नई दिल्ली आईपी रजिस्टर नं. आईबीबीआई / आईपीए-002 / आईपी-एन00568 / 2017-18 / 11724 दिनांकः 06.06.2024 एएफए नं.: एए2/11724/02/171224/203142

> राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नई दिल्ली, नई दिल्ली पीठ के समक्ष कंपनी याचिका (सीएए) संख्या ३३/एनडी/२०२४ से संबंधित

कंपनी आवेदन (सीएए) संख्या २१ / एनडी / २०२४ कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २३०-२३२, कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 16 के साथ पठित

के मामले में:

श्री जी लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय २०८, ओखला ओद्योगिक एस्टेट, फेज-॥, नई दिल्ली - ११००२० में है .....(हस्तांतरक कंपनी १ / याचिकाकर्ता कंपनी १)

जेपीआर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय २०८, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली - 110020 में है

.....(हस्तांतरक कंपनी २ / याचिकाकर्ता कंपनी २) जसपैक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड,

जिसका पंजीकृत कार्यालय २०८, ओखला औद्योगिक एस्टेंट, फेज-III, नई दिल्ली - ११००२० .....(हस्तांतरक कंपनी ३ / याचिकाकर्ता कंपनी ३) के साथ

मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय २०८, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज- III, नई दिल्ली - 110020 में है (रस्तांतरित कंपनी / याचिकाकर्ता कंपनी △)

याचिका की सूचना श्री जी लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (हरतांतरक कंपनी 1/याचिकाकर्ता कंपनी 1) और जेपीआर लेखा प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरक कंपनी २/याचिकाकर्ता कंपनी २) और जसपैक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरक कंपनी ३/याधिकाकर्ता कंपनी ३) का मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड (हस्तांतरिती कंपनी/ **याचिकाकर्ता कंपनी 4)** के साथ विलय हेत व्यवस्था की योजना की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २३०-२३२ और अन्य लाग् प्रावधानों के तहत एक याचिका याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा ३० अप्रेल, २०२४ को प्रस्तुत की गई थी और याचिका पर ०९ जलाई, २०२४ को नई दिल्ली में मानगीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के नई दिल्ली पीठ के समक्ष स्नवाई निर्धारित की गई है। इक याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता के अधिवक्त

को अपने नाम और पते के साथ अपने इरादे की सचना. स्वयं या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताश्वरित भेजनी चाहिए, ताकि वह निर्धारित तिथि से २ (दो) दिन पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तक पहुंच जाए। याचिका की सुनवाई के लिए, जहां वह याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध के आधार य हलफनामे की एक प्रति ऐसी सुचना के साथ प्रस्तुत की जाये। याचिका की एक प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता हारा किसी भी व्यक्ति को निधारित शुल्क का भुगतान करने पर उपलब्ध कराई जाएगी। एडवोकेट सुमन कुमार झा/एस. शिवा

दिनांक: ०६ जून, २०२४ स्थान: नई दिल्ली

(याचिकाकर्ता कंपनियों के वकील) कृते कॉपोरेट प्रोफेशनल्स एडवाइजर एंड एडवोकेट्स डी-२८, साउथ एक्सटेंशन-१, नई दिल्ली – ११००४९; मोबाइल – ९९११६२६३२४

FSL फ्रंटलाइन सिक्योरिटीज लिमिटेड

सीआईएनः U65100DL1994PLC058837 पंजीकृत कार्यालयः एम-6, दूसरा तल, एम-ब्लॉक मार्केट ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048 कॉर्पोरेट कार्यालय-बी-22, सेक्टर-4, नोएडा (यूपी) -201301 वेबसाइटः www.fslindia.com, ईमेल आईडी: secretarial@fsltechnologies.com, टेलीफोनः 0120-2534067, फैक्सः +91-120-2534111

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ) कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अनिवार्य हस्तांतरण

यह सूचना कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी "नियम") और उसके बाद किए गए संशोधन द्वारा जारी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया गया है। आईईपीएफ नियम, अन्य बातों के साथ-साथ उन अंतर्निहित शेयरों को केंद्र सरकार द्वारा

स्थापित आईईपीएफ (निधि) में स्थानांतरित करने का प्रावधान करते हैं, जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों तक लाभांश का भूगतान या दावा नहीं किया गया है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम,2016 के नियम 6(1) के अनुसार, "अंतर्निहित शेयरों को प्राधिकरण द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए खोले गए प्राधिकरण के डीमैट खाते में ऐसे शेयरों के निधि में स्थानांतरित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा"।

उक्त नियमों के अनुसार, उन संबंधित व्यक्तिगत शेयरधारकों को संचार भेजा गया है, जिनका लाभांश वित्त वर्ष 2016–17 के लिए गैर भुगतान /अदावा किया गया है, कि कंपनी बिना किसी और सूचना के देय तिथि यानी 09 सितंबर, 2024 से 30 दिनों के भीतर आईईपीएफ में शेयरों के हस्तांतरण के लिए कार्रवाई शुरू करेगी।

कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित किए जाने वाले शेयरों का विवरण अपनी वेबसाइट www.fslindia.com पर भी अपलोड किया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने वाले शेयरों के विवरण को सत्यापित करने के लिए वेबसाइट पर निवेशक अनुभाग देखें।

यदि शेयरधारक 01 सितंबर, 2024 तक उपरोक्त लाभांश का दावा करने में विफल रहते हैं, तो कंपनी शेयरधारकों को कोई और सुचना दिए बिना, शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत कंपनी के अंतर्निहित इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के आईईपीएफ खाते में जमा करने की कार्यवाही करेगी। कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार दावा न किए गए लाभांश राशि और आईईपीएफ में स्थानांतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जा सकता है।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि दावा न किए गए लाभांश और आईईपीएफ प्राधिकरण के आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित किए गए शेयर, ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभों सहित, यदि कोई हो, नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उनके द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता है।

संबंधित शेयरधारक, जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं, वे कृपया ध्यान दें कि कंपनी नियमों के अनुसार आईईपीएफ खाते में शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा रखे गए मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में ड्प्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और इस तरह के जारी होने पर, उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही रद्द हो जाएंगे और उन्हें गैर-परक्राम्य माना जाएगा। शेयरधारक यह भी ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण को नियमों के अनुसार आईईपीएफ खाते में शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा डिप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सचना माना जाना चाहिए।

किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों मेसर्स एसकेआई कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए),718, डॉ. जोशी रोड, करोल बाग,नई दिल्ली−110005,फोन नंबर:011−45046000 / 30, ईमेल आईडी: contact@skicapital.net से संपर्क करें।

> फ्रंटलाइन सिक्योरिटीज लिमिटेड के लिए गौरी शंकर पांडे (निदेशक)

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

के माध्यम से बिकी हेत सार्वजनिक सचना

दिनांकः 07.06.2024, स्थानः गाजियाबाद

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

क्रोकी सरकार, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

क्रोकी टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यावय बी-1/30, 1ला तल, जनकपुरी, दिल्ली-110058 में है, के मामले में

रतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "**रा.रा** क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 3 जून, 2024 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 2 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पं दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: बी-1/30, 1ला तल, जनकपुरी, दिल्ली-110058 निर्देशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से

क्रोकी टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड हस्तार/- दीपक तोमर (निर्देशक) DIN: 02484965 5 सी-12, ब्लॉक सी, डीएलएफ फेज-1, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 तिथि: 07.06.2024 स्थान: नई दिल्ली

प्ररूप संख्या आइएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और ळपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए के मामले में

संघार दूलिंग प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U28939DL2002PTC114374) जिसका पंजीकृत कायोलयः बी–6 / 20, एल.एस.सी

सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 में हैं, के मामले में ....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है. जिसमें कंपनी का पंजीकत कार्यालय "**राष्ट्रीय** राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 29 मई 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पृष्टि करने की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें जनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण जिल्लेखित हो। के साथ अपनी आपति क्षेत्रीय निर्देशक को इस ख़बना के प्रकाशन की तारीख से बौदह (14)। दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी कं उनके निम्नलिखित पंजीकत कार्यालय पते पर भी भेजें। बी-6 / 20, एल.एस.सी. सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर रे संधार दुलिंग प्राइवेट लिमिटेड हस्ता /

उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता /

गारंटर / बंधककर्ता

अजय कुमार राधव दिनांक: 06.06.2024 (निदेशक) स्थान : नई दिल्ली डीआईएन: 09380468

[देखें विनियमन 33 (2)

पंजी ए⁄डी, दस्ती द्वारा अन्यथा प्रकाशन द्वारा कार्यालयः वसूली अधिकारी- 1/11

ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) 4था तल, जीवन तारा बिलिंडग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ऋणों की वसूली एवं दिवालिया अधिनियम, 1998 की धारा 25-28 के साथ पठित आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 53 के अंतर्गत सूचना

आरसी / 170/2018 23.04.2024

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम मै० श्री साई होजिअरी एवं अन्य

सेवा में. संबंधित अधिकारीगणः . नगर निगम/जल बोर्ड (संबंधित क्षेत्र),

2. विद्युत विभाग (संबंधित क्षेत्र) 3. आय कर⁄बिक्री कर विभाग, आदि (संबंधित क्षेत्र)

4. दि.वि.प्रा. ⁄विकास प्राधिकरण (संबंधित क्षेत्र)

सीएच बैंक/ सीएच वित्तीय संस्थान के बकाये की वसूली के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति की बिक्री करने का प्रस्ताव किया जाता है:

सम्पत्ति सर्वे नं. पुराना नं. एनडब्ल्यू–143 तथा नया नं. एनडब्ल्यू–143 ए, खसरा नं. 19/3 में, ग्राम ख्याला, ब्लॉक–एनडब्ल्यू, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-110018

:. एतद्द्वारा आपको निर्देशित दिया जाता है कि इस सूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर उक्त सम्पत्ति पर, यदि कोई हो, आपकी देयताओं को उदघाटित करें जिसमें विफल होने पर यह माना जायेगा कि आप के विभाग के प्रति

उक्त सम्पत्ति पर कोई देयता नहीं है। मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज दिनांक 23.04.2024 को दी गई। वसूली अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1

#### नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड

सीआईएन : L65993DL1970PLC146414 पंजी. कार्यालय : 28 नजफगड़ रोड, मोती नगर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110 015 फोन नंबर (011) 45021854, 45021812,

शाखा कार्यालय : ओ. पी. जिंदल मार्ग, हिसार-125005, हरियाणा फोन नंबर (01662) 222471-B3

ई-मेल आईडी : investorcare@nalwasons.com, वेबसाइट : www.nalwasons.com

डाक-मतदान सूचना लदद्वारा शेयरधारकों को सुचित किया जाता है कि नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड (एनएसआईए नोटिस में निर्धारित ढाक मतदान के माध्यम से निर्देशकों की नियुक्ति के लिए अपने सदस्यों की स्वीकृति मांगने की प्रक्रिया में हैं। बाक मतदान की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और धारा 110 तथ अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई, के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा सामान्य बैठकों के विषय में जारी सचिवीय मानक तथा सेवे मुचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली. 2015 के विनियम 44 के अनुसार होगी। इसके तिरिक्त, भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावर्ल

शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आगामी सामान्य बैठक अथवा नियुक्ति की तिथि से तीन माह की समयावधि जो भी पूर्वतर हैं, के भीतर लिया जाता है। तदनुसार, शेयरधारकों का अनुमोदन उक्त खक मतदान की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा । कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और नियम 22, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सेबी एलओडींआर") के विनियम 44 के साथ पिटत कार्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांकित 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांकित 28 सितम्बर, 2020, 39/2020 दिनांकित 31 दिसम्बर, 2020, 10/2021 दिनांकित 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांकित 8 दिसम्बर, 2021, 03/2022 दिनांकित 5 मई, 2022, 11/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 तथा 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर 2023 (इसमें आगे सामृहिक रूप से "एमसीए सर्कुलर्स" कहे गए हैं) तथा अन्य लागू विधियों तथा विनियमी समय समय पर संशोधित (जिनमें उनके सांविधिक संशोधन अथवा अस्थायी रूप से लागू पुनर-अधिनियम सम्मिलित हैं) के प्रावधानों में कम्पनियों को डाक मतदान प्रक्रिया का संचालन केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप मे

1015 के विनियम 17(आईसी) के अनुसरण में, निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए

लेमिटेड ("लिंक इनटाइम") की रिमोट ई-बोटिंग सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी। एमसीए द्वारा लाग् सर्कुलर्स के अनुसरण में. डाक मतदान की सूचना केवल ई—मेल द्वारा उन सदस्यों को भेजी जाएंगी, जिनका ई—मेल पता एमसीए सर्कुलर्स के अनुसार कम्पनी अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी टिसिपेंट्स के पास पंजीबद्ध है। एमसीए द्वारा लागू सर्कलसे के अनुसार, किसी शेयरधारक / सदस्य। इक मतदान की सूचना की कोई भौतिक प्रति नहीं भेजी जाएगी। सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com पर तथा स्टॉक एक्सबेंजेज नामतः नैशनल स्टॉक एक्सबेंज ऑफ इंडिया लेमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी सपलब्ध होगी।

भेजने द्वारा करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, डाक मतदान प्रक्रिया लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट

उपरोक्त के दुष्टिगत, कम्पनी ने अपने सदस्यों को अपने ई—मेल पता निम्नलिखित विधि से पंजीकृत / अपडेट करने की सुर्विधा प्रदान की है और उनसे अनुरोध है कि ढाक मतदान की सुबना तथा अन्य संदेश प्राप्त करने हे लिए अपना ई-मेल पता यथासमय पंजीकृत / अपडेट करवा लें : –मेल पता पंजीकरण / अपडेट की विधि जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हैं और अपना ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकत/अपडेट नई

करवाया है, वे फोलियो नंबर, पंजीकृत किए जाने हेतु पता और ई-मेल पता के उल्लेखयुक्त हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कॅन प्रति, पैन कार्ड तथा सदस्य के पंजीकृत पते के समर्थन में किसी दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति सहित कम्पनी को investorcare@nalwasons.com पर भेजकर अपना ई-सेल पता पंजीकृत / अपडेट करवा सकते हैं। जिन सदस्यों के शेयर अभौतिक रूप में हैं और अपना ई--मेल पता अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी)

के पास पंजीकृत / अपबेट नहीं करवाया है, वे अपना ई-मेल पता ढीपी के पास पंजीकृत / अपबेट करवा सकते हैं. जहां उनका डीमैट खाता अनरक्षित है। -वोटिंग के महस्यम से वोट डालने की विधि सदस्यों को डाक मतदान की सूचना में दिए जाने वाले वर्णित मद(मदों) पर उनका वोट ई-वोटिंग द्वारा

इलेक्ट्रॉनिक विधि से डालने के लिए सक्षम बनाने हेतु ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कम्पनी ने इसके सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा जपलब्ध कराने के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("लिक इनटाइम") की सेवाएं अनुबंधित की है। डाक मतदान की सूचना में ई-वोटिंग के विस्तृत अनुदेश वर्णित किए जाएगे। सदस्यों को ई-बोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉग-इन क्रेडेन्शियल्स ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध

कराए जाएंगे। जिन सदस्यों को ई-मेल प्राप्त नहीं हो अथवा जिनका ई-मेल पता कम्पनी/ डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीकृत नहीं है, वे डाक मतदान की सूचना में दिए जाने वाले अनुदेशों के अनुसार लॉग–इन क्रेडेन्शियल्स बना सकते हैं।

(अजय मिल्तल

कंपनी सचिव

दिनांक / समय एव ंकब्जे

का प्रकार

05-06-2024

<u>संपत्ति 1: 1:57 अपराह्न</u>

संपत्ति 2: 2:23 अपराह

सांकेतिक कब्जा

शेयरधारकों से ढाक मतदान की सूचना में दिए जाने वाले अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने का अनुरोध किया जाता है। कृते नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड

स्थान : हिसार दिनाक : 06 जून, 2024

13(2) नोटिस दिनांक / बकाया

देय (रुपये में)

कब्जा सूचना

जबिक, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षाहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और शक्तियों का प्रयोग करते हुए जना रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकृत अधिकारी के रूप में सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं को मांग सूचना जारी करता है, जिसमें उधारकर्ताओं से संबंधित नामों के सामने उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्तन ोटिस की प्राप्ति की तारीख से, भुगतान और / या वसूली की तारीख तक किए गए प्रासंगिक खर्चों, लागतों, शुल्कों आदि के रूप में भविष्य के ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया था।

दिनांक 13(2): 15-03-2024 1) श्री राहुल (आवेदक), 05-06-2024 दिनांक 11.03.2024 तक बैंक को देय राशि 2) श्रीमती बिमला समयः 03:08 अपराह रु.17,94,009 / – (सत्रह लाख चौरानबे हजार नौ (सह–आवेदक) रुपए मात्र) है। सांकेतिक कब्जा **सुरक्षित संपत्ति का विवरण:** किला नं. 38/16/3, क्षेत्रफल 93.44 वर्ग गज, सोनीपत जिले के लहराडा की आबादी में स्थित है। जो श्रीमती बिमल

देवी, पत्नी श्री सेवा राम के स्वामित्व में है। सीमाः पूर्वः मकान सूरजमल, पश्चिमः गली / रास्ता 11 फीट चौड़ा, उत्तरः प्लॉट नरेश, दक्षिणः मकान 1) मेसर्स जय इलेक्ट्रिक वर्क्स एंड मशीनरी स्टोर

दिनांक 13(2): 05-02-2024 जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रोपराइटर श्री जय सिंह दिनांक 04.02.2024 तक बैंक को 45288640000537 कर रहे हैं, 2) श्री जय सिंह (अब मृतक) जिसका देय राशि रु.71,72,292/— प्रतिनिधित्व इसके एलआर द्वारा किया जा रहा है ए) (रुपये इकहत्तर लाख बहत्तर हजार 3206020000729616 श्री प्रदीप, बी) श्री परवीन और सी) श्रीमती सावित्री दो सौ बानबें मात्र) है। (उधारकर्ता), 3) श्री प्रदीप (गारंटर), 4) श्री परवीन (गारंटर), 5) श्रीमती सावित्री (गारंटर)

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति विवरण 1:- संपत्ति 40 वर्ग गज यानि 1 मरला 2 सरसई 3 मरला में से 40ध100 हिस्सा है खेवट संख्या 2430 खतौनी संख्या 2590 रेक्ट संख्या 138 किला संख्या 4/11(0–3) में स्थित है गांव खेवड़ा तहसील राई जिला सोनीपत के अनुसार बिक्री विलेख संख्या 2673 दिनांक 22-09-2014 श्रीमती सावित्री पत्नी जय सिंह के स्वामित्व में है। इस प्रकार घिरा हुआ है: पूर्वः अन्य का घर।, पश्चिमः अन्य का घर। संपत्ति विवरण 2:— संपत्ति एक दुकान ∕प्लॉट 31 वर्ग गज 0—1 मरला है जो 19 मरला में से 1 ∕ 39 हिस्सा है खेवट नंबर 54, खाता नंबर 123

मुस्तिल और किला नंबर 19 / 18 / 1 / 2 / 2(1-14) 8 / 2 / 2(0-5) वाका रकबा गांव बहालगढ़ तह. राई जिला सोनीपत हरियाणा में शामिल है

जो श्री जय सिंह, पुत्र बलमतसिंह के स्वामित्व में है। सीमाः पूर्वः दूसरों की दुकान, पश्चिमः दूसरों की दुकान, दक्षिणः दूसरों की फैक्ट्री, उत्तरः खेड़ा जबकि, यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पिठत उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सरक्षित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं और सामान्य रूप

के साथ कोई भी लेनदेन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा। स्थानः सोनीपत हस्ता / - प्राधिकृत अधिकारी, दिनांकः 07-06-.2024, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

से जनता को सुचित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों / सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथलेन–देन न करें और उक्त संपत्तियों / सुरक्षित परिसंपत्तियों

**पंजीकृत कार्यालयः** द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलुर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगलमें, चल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071

शाखा कार्यालयः 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005

स्थानः नोएडा

दिनांकः 06.06.2024

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071 शाखा कार्यालय: 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज रोड, करोल बाग. दिल्ली-110005

ई-नीलामी सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सुचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसुली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) ''जैसा है जहां है आधार'' और ''जो है यही है'' के आधार पर यहां नीचे निर्धारित तिथि पर आयोजित की

| जाएगा। |             |                   |  |                       |                  |   |   |   |   |  |   |
|--------|-------------|-------------------|--|-----------------------|------------------|---|---|---|---|--|---|
|        | क्र.<br>सं. | ऋण खाता<br>संख्या | मूल कर्जदार∕सह−कर्जदार∕<br>गारंटर के नाम   | 13-2 सूचना<br>की तिथि | कब्जे की<br>तिथि | 03.06.2024 तक वर्तमान<br>बकाया शेष  | सम्पत्ति के<br>निरीक्षण की तिथि<br>तथा समय                | आरक्षित<br>मूल्य रु. में                                  | जमा धरोहर राशि<br>(ईएमडी) रु. में                           | ई-नीलामी की<br>तिथि तथा<br>समय           | बोली जमा करने की अंतिम तिथि,<br>समय तथा स्थान   |
|        | 1           | 47939420000051    | <ol> <li>श्री धर्मपाल सिंह, पुत्र श्री आनंद सिंह (आवेदक),</li> <li>श्रीमती अनीता देवी, पत्नी श्री धर्मपाल सिंह (सह-आवेदक),</li> <li>श्री चंद्रपाल, पुत्र आनंद सिंह (सह-आवेदक)</li> </ol> | 29-12-2019            | 15-04-2024       | रु.20,81,682.94 (रुपये<br>बीस लाख इक्यासी हजार<br>छ: सौ बयासी और चौरानबे<br>पैसे मात्र) | 21.06.2024<br>को 09:00 बजे<br>पूर्वा. से<br>05:30 बजे अप. | रु.12,83,000/-<br>(मात्र बारह लाख<br>अस्सी हजार<br>रुपये) | रु.1,28,300/- (एक<br>लाख अट्ठाईस हजार<br>तीन सौ रुपए मात्र) | 11.07.2024<br>को<br>11:00 बजे<br>पूर्वा. | 10.07.2024 को 5.00 बजे<br>अप. से पूर्व,<br>जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,<br>16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए.<br>आर्य समाज रोड, करोल बाग,<br>दिल्ली-110005 |

प्रतिभृत संपत्तियों का विवरणः प्लॉट नं. वी-120, खसरा नं. 312 मिन, क्षेत्रफल माप 41.805 वर्ग मीटर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, एमआईजी, एलएचएस यूनिट (छत के अधिकार रहित), रेल विहार, शेखन आवास समिति लिमिटेड, हदबस्त गांव सादुल्लाबाद, परगना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित, श्रीमती अनिता देवी पत्नी श्री धरमपाल सिंह के स्वामित्व में संपत्तियों को ''जैसा है जहां है आधार'' और ''जो है यही है'' के आधार पर बेजा जा रहा है और ई-नीलामी 'ऑन लाइन' आयोजित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल https://bankauctions.in तथा

www.foreclosureindia.com पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी और ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मैसर्स 4क्लोजर: श्री उत्कर्ष आदेश संपर्क नंबर: 9515160064, ईमेल आईडी: info@bankauctions.in/adesh@bankauctions.in पर संपर्क कर सकते हैं। ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारी श्री राकेश शर्मा (मो. 7230070463), श्री तुंग कुशिक (8105191533), श्री शिश कुमार (8700277112) और रंजन नाइक (9590858249) से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार, संपत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, हित के संबंध में अपनी स्वतंत्र पछताछ करनी चाहिए। कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। यह बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारों/गारंटर/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सचना है। कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी।

www.readwhere.com